



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 28, 1982/फाल्गुन 9, 1903

No. 67]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 28, 1982/PHALGUNA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1982

सं० 21/82—सीमाशुल्क

सा०का०नि० 175(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधि-
नियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०-5 सीमाशुल्क, तारीख 4 जनवरी
1978 को अधिस्तान्त करने हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
(1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 25 के अन्तर्गत आने
वाले सीमेंट को (जिम्मे अन्तर्गत पोर्टलैंड सीमेंट है), जब उसका भारत
में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रह-
णीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 10 प्रतिशत
से अधिक है।

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th February, 1982

No. 21/82-CUSTOMS

G.S.R. 175(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of
1379 GI/81—1

1962), and in supersession of the notification of the Government
of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue)
No. 5-Customs, dated the 4th January, 1978, the Central Govern-
ment, being satisfied that it is necessary in the public interest so
to do hereby exempts cement (including portland cement), falling
within Chapter 25 of the First Schedule to the Customs Tariff
Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much
of that portion of the duty of customs leviable thereon which is
specified in the said First Schedule as is in excess of 10 per cent
ad valorem.

[F.No. Bud(Cus)/82]

सं० 22/82—सीमा शुल्क

सा०का०नि० 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम,
1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक-
हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975
(1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 26 के अन्तर्गत आने
वाले जस्ता साम्र और सीसा साम्र को, जब उनका भारत में आयात
किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय समस्त
सीमाशुल्क से छूट देती है।

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 22/82-CUSTOMS

G.S.R. 176(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of
1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary
in the public interest so to do, hereby exempts zinc concentrates
and lead concentrates, falling within Chapter 26 of the First Sche-

dule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.

[F.No. Bud(Cus)/82]

सं० 23/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 177(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 79.01 के उप-शीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आने वाले माल को जब उसका भारत में आयात किया जाए उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ब्रूणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 23/82 CUSTOMS

G.S.R. 177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 79.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 45 per cent *ad valorem*.

[F.No. Bud(Cus)/82]

सं० 24/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 178(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 78.01 के उप-शीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत आने वाले अपशिष्ट और स्क्रैप सीसा को जब उसका भारत में आयात किया जाए द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ब्रूणीय प्रतिरिक्त सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 550 रुपए प्रति टन से अधिक है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 24/82-CUSTOMS

G.S.R. No. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts lead waste and scrap, falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 78.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act, as is in excess of Rs. 550 per tonne.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 25/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 179(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 29.01/45 के उप-शीर्ष सं० (22) के अन्तर्गत आने वाली एनिलीन (एनिलीन तेल) को जब उसका भारत में आयात किया जाए उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ब्रूणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 80 प्रतिशत से अधिक है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 25/82-CUSTOMS

G.S.R. 179 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aniline (aniline oil), falling under sub-heading No. (22) of Heading No. 29.01/45 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 80 per cent *ad valorem*.

[F.No. Bud (Cus)/82]

सं० 26/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 180(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 45-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)
"23. सिफेलीरिडीन (सिकेलेक्सीन)	
24. क्लैक्ससिलिन	
25. सोडियम क्रोमोग्लाईकेट	
26. सेबोटैक्सेट	
27. सीसीएनयू (लोमुस्टाइन)	
28. साइक्लोफास्फाऐमाइड ट्राइड यूरेट	
29. इफोस्फामाइड	
30. ट्रोफोस्फामाइड	
31. टेमोक्सीफिल सिट्रेट	
32. फ्यूट्राकुल।" (1)	

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 26/82—CUSTOMS

G.S.R. 180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 45-Customs, dated the 1st March, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after Sl. No. 22 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2
"23. Cephaleridine	
(Cephalexin)	

1 2

24. Clexacillin
25. Sodium Cromoglycate
26. Methotrexate
27. CCNU (Lomustine)
28. Cyclophosphamide
Triturate.
29. Ifosfamide
30. Trofosfamide
31. Tamoxifen citrate
32. Futraful."

[F.No. Bud(Cus)/82]

सं० 27/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 181(प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 64-सीमाशुल्क तारीख 6 मार्च, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) उन दोनों स्थानों पर जहाँ "औषधियों के निर्माण" शब्द आते हैं "उपास्य औषधि-मध्यवर्तियों या औषधियों के विनिर्माण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) मारणी में क्रम सं० 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पञ्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

(1) (2)

"27. डी-ऐल्फा फीनाइल ग्लाइसिन बेस।"

[का० सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 27/82-CUSTOMS

G.S.R. 181-(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 64-Customs, dated the 6th March, 1979, namely :—

In the said notification—

- (a) for the words "manufacture of drugs", in the two places where they occur, the words "manufacture of penultimate drug intermediates or drugs" shall be substituted;
- (b) in the Table, after Sl. No. 26 and the entries relating thereto, the following shall be inserted' namely :—

(1) (2)

"27. D-Alpha Phenyl Glycine Base".

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 28/82-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 182(प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 226-सीमा शुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 1978 की अधिष्ठाता करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 31 के अंतर्गत आने वाले कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (कै०अ०ना०) को, जब उनका खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए भारत में आयात किया जाए—

(क) उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त प्रतिरिक्त शुल्क से,

छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता ऐसे प्रारूप में और ऐसी राशि के लिए जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक बन्धपत्र निष्पादित करके कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (कै०अ०ना०) की उतनी मात्रा के बारे में, जिसके बारे में सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि उनका उपयोग पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया गया है, मांग पर, उसका रकम का संदाय करने के लिए अपने को ब्राबद्ध करे जो, यदि इसमें अन्तर्विष्ट छूट न होती तो, ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अन्तर के बराबर हो।

[का० सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 28/82-CUSTOMS

G.S.R. 182-(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 226-Customs, dated the 16th November, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts calcium ammonium nitrate (C.A.N.), falling within Chapter 31 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use as manure, from—

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act:

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of calcium ammonium nitrate (C.A.N.) which is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 29/82-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 183(प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 31.02/05 के उपशीर्ष सं० (4) के अंतर्गत आने वाले अमोनियम सल्फेट को, जब

उपका भारत में आयात किया जाए, द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घरण्य समस्त अनिवार्य सीमा शुल्क से छूट देती है।

[फा०सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 29/82-CUSTOMS

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts ammonium sulphate, falling under sub-heading No. (4) of Heading No. 31.02/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 30/82-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 184(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपायय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्घरण्य सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तस्मान्ती प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से अधिक है :

परन्तु इस अधिसूचना की किसी बात का भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अधीन, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल की बाबत उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क से री गई छूट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
1.	पॉलिग्रेस्टर फिल्म	मूल्य का 140 प्रतिशत
2.	अन्य रम	मूल्य का 100 प्रतिशत

[फा०सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 30/82-CUSTOMS

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, falling under Heading No. 39.01/06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the rate of duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the duty of customs specified in the said First Schedule in respect of the goods referred to in this notification.

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Polyester chips	140 per cent. <i>ad valorem</i> .
2.	All others	100 per cent. <i>ad valorem</i> .

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 31/82-सीमाशुल्क

सा०का०नि० 185(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 24-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिस्तान करने हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 48.01/21 के उप-शीर्ष सं० (2) के अधीन आने वाले और इससे उपायय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अखबारी कागज को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्घरण्य सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तस्मान्ती प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
1.	समाचार पत्रों, पुस्तकों और नियतकालिक पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए अखबारी कागज	550 रु० प्रति टन
2.	अन्य प्रयोजनों के लिए अखबारी कागज	मूल्य का 40 प्रतिशत

[फा०सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 31/82-CUSTOMS

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24-Customs, dated the 1st March, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts from newsprint, falling under sub-heading No. (2) of heading No. 48.01/21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the rate of duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Newsprint for printing of newspapers, books and periodicals.	Rs. 550 per tonne.
2.	Newsprint for other purposes	40 per cent <i>ad valorem</i> .

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 32/82-सीमा शुल्क

सांकांति० 186(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 32-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में उपाखण्ड सारणी में क्रम सं० 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

1	2	3
"5. एसिटेट फिलामेंट सूत	मूल्य का 5 प्रतिशत	
6. ऊपर की क्रम सं० 1, 2, 3, 4, और 5, में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में बिना सभी वस्तुएं	मूल्य का 100 प्रतिशत	

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 32/82-CUSTOMS

G.S.R. 186(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 38-Customs dated the 1st March, 1978, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for Sl. No. 5 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"5. Acetate filament yarn	5 per cent <i>ad valorem</i> .	
6. All articles other than these specified in Sl. Nos. 1, 2, 3, 4 and 5 above.	100 per cent <i>ad valorem</i> .	

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 33/82-सीमा शुल्क

सांकांति० 187(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 77-सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिसूचना करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 73.08, 73.09 और 73.14 में वर्णित आकार के और उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 73.15 के उपशीर्ष सं० (1) के अंतर्गत आने वाले मिथाइल गैस और अधिकांश गैस को, अब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्घरण्य सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देता है जितना मूल्य के 35 प्रतिशत से अधिक है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 33/82-CUSTOMS

G.S.R. 187(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 77-

Customs, dated the 18th June, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts alloy steel and high carbon steel in the forms mentioned in Heading Nos. 73.08, 73.09 and 73.14 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975, (51 of 1975), and falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.15 of the said First Schedule, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 35 per cent *ad valorem*.

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 34/82-सीमाशुल्क

सांकांति० 188(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट मात्रा को, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० के अंतर्गत आता है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्घरण्य सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है:

परन्तु इस अधिसूचना की किसी बात का भारत सरकार की तत्स्थान प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अर्थान्त, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट मात्रा की बाबत उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से दो गहरे छूट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी

क्रम सं०	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का शीर्ष सं०	मात्रा का वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3	4
1	73.13(1)	कठई रहित निर्यात पत्र से बिना सभी मात्रा	मूल्य का 30 प्रतिशत
2	73.13(2)	टिन प्लेट अवशिष्ट के अवशिष्ट में बिना सभी मात्रा	मूल्य का 40 प्रतिशत

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 34/82-CUSTOMS

G.S.R. 188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the rate specified in column (4) of the said Table:

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from duty of customs specified in the said First Schedule in respect of the goods referred to in this notification.

TABLE

Sl. Heading No. of No. the First	Description of goods	Rate of duty.
	Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.	
(1)	(2)	(3)
1. 73.13(1)	All goods other than tin-free coated steel sheets.	30 per cent <i>ad valorem</i>
2. 73.13(2)	All goods other than tin-plate waste.	40 per cent <i>ad valorem</i> .

[F. No. Bud (Cus)/82.]

सं० 35/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 189(प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के, यथास्थिति, राजस्व और वैकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन अधिसूचनाओं का जो इसमें उपावृद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधन या और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	107-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977	उक्त अधिसूचना में उपावृद्ध सारणी में, क्रम सं० 10 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों का, लोप किया जाएगा:
2.	151-सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977	उक्त अधिसूचना में,— (क) परन्तुक में, "लोहा या हस्पात के पिघलन अपशिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "लोहा या हस्पात के पिघलन अपशिष्ट (जो स्टेनलेस स्टील या तापरोधक स्टील से भिन्न है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे; (ख) सारणी में— (i) क्रम सं० 1 के सामने, स्तम्भ (2) में, "लोहा या हस्पात का पिघलन अपशिष्ट" शब्दों के स्थान पर "लोहा या हस्पात का पिघलन अपशिष्ट (जो स्टेनलेस स्टील या तापरोधक स्टील से भिन्न है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे। (ii) क्रम सं० 2 के सामने, स्तम्भ (2) में, "रही और

1	2	3
		अपशिष्ट धातु" शब्दों के स्थान स्थान पर "रही और अपशिष्ट धातु (जो स्टेनलेस स्टील या तापरोधक स्टील से भिन्न है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
3.	117-सीमा शुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1981	उक्त अधिसूचना में, "मिश्रधातु हस्पात (जिसके अन्तर्गत स्टेनलेस स्टील नहीं है)" और शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

[फा सं० बजट (सी० शु०/82)]

No. 35/82-CUSTOMS

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of finance (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and date.	Amendment
1. 107-Customs, dated the 1st July, 1977.	In the Table annexed to the said notification, Sl. No. 10 and the entries relating thereto shall be omitted.
2. 151-Customs, dated the 15th July, 1977.	In the said notification :— (a) in the proviso, for the words "melting scrap of iron or steel", the words and brackets "melting scrap of iron or steel (other than stainless steel or heat-resisting steel)" shall be substituted. (b) in the Table— (i) against Sl. No. 1, in column (2), for the words "Melting scrap of iron or steel", the words and brackets "Melting scrap of iron or steel (other than stainless steel or heat-resisting steel)" shall be substituted. (ii) against Sl. No. 2, in column (2), for the words "waste and scrap metal" the words and brackets "waste and scrap metal (other than stainless steel or heat-resisting steel)" shall be substituted.
3. 117-Customs, dated the 28th April, 1981.	In the said notification, the words and brackets "alloy steel (excluding stainless steel) and" shall be omitted.

[F. No. Bud (Cus)/82.]

सं० 36/82—सीमाशुल्क

सा० का० नि० 190 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 74.07/08 के उप-शीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाएगा, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्-ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक है।

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 36/82—CUSTOMS

G.S.R. 190 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods, falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 74.07/08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 60 per cent *ad valorem*.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 37/82—सीमाशुल्क

सा० का० नि० 191 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के, यथास्थिति, राजस्व और वीकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, जो इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)

1. 281-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 के मामले "औद्योगिक और कृषि ट्रैक्टरों" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक और कृषि ट्रैक्टरों और पावर टिलरों" शब्द रखे जाएंगे।
2. 155-सीमाशुल्क, तारीख 28 मई, 1981
उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक भाग में, "औद्योगिक और कृषि ट्रैक्टरों" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक और कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों" शब्द रखे जाएंगे।

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 37/82—CUSTOMS

G.S.R. 191 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1. 281—	Customs, dated the 2nd August, 1976.	In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 2, for the words "industrial and agricultural tractors" the words "industrial and agricultural tractors and power tillers" shall be substituted.
2. 155—	Customs, dated the 28th May, 1981.	In the said notification, in the opening portion, for the words "industrial and agricultural tractors", the words "industrial and agricultural tractors, power tillers" shall be substituted.

[F. No. Bud(Cus)/82]

संख्या 38/82—सीमाशुल्क

सा० का० नि० 192 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए; अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, जो इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1. 49-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978	उक्त अधिसूचना में "25 प्रतिशत मूल्यानुसार" श्रंकों और शब्दों के स्थान पर "मूल्य के 30 प्रतिशत" श्रंक और शब्द रखे जाएंगे।	
2. 243-सीमाशुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 1978	उक्त अधिसूचना में "मूल्यानुसार शुल्क के 25 प्रतिशत" श्रंकों और शब्दों के स्थान पर "मूल्य के 30 प्रतिशत" श्रंक और शब्द रखे जाएंगे।	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(4)
3. 114-सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980	उक्त अधिसूचना में "मूल्य का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "मूल्य का प्रतिशत" शब्द और शब्द रखे जाएंगे।	25 30				तापमानिक वायु या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्ध-चालक साधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संघारित्र से निम्न संघारित्र ;

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 38/82—CUSTOMS

G.S.R. 192 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)
1. 49—Customs, dated the 1st March, 1978.	In the said notification, for the figures and words "25 per cent <i>ad valorem</i> ", the figures and words "30 per cent <i>ad valorem</i> " shall be substituted.
2. 243—Customs, dated the 26th December, 1978.	In the said notification, for the figures and words "25 per cent <i>ad valorem</i> ", the figures and words "30 per cent <i>ad valorem</i> " shall be substituted.
3. 114—Customs, dated the 19th June, 1980.	In the said notification, for the figures and words "25 per cent <i>ad valorem</i> ", the figures and words "30 per cent <i>ad valorem</i> ", shall be substituted.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 39/82-सीमाशुल्क

सा० फा० नं० 193(आ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अगता यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 172-सीमाशुल्क, तारीख 8 अगस्त, 1977 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाख्य सारणी में:—

(i) क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
2. शीर्ष सं० 84.51/85 का उप-शीर्ष सं० (1)	मूल्य का 60 प्रतिशत	(1) परिलिखित, लेखा मशीनें या केश रजिस्टर जिनमें निम्नलिखित है:—	

(2) ऊपर प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट मशीनें के की बोर्ड ;

(3) पुर्जे, उप मधान या सहायक एकक जिनमें निम्नलिखित है:—

तापमानिक वायु या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्धचालक साधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संघारित्र से निम्न संघारित्र ;

जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से ऊपर की प्रविष्टि

(1) में विनिर्दिष्ट मशीनें के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हैं ; किन्तु जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं:—

(क) चुम्बकीय और आण्टिकल रीडर

(ख) कोड लिपि में डाटा की डाटा, मध्यम में प्रतिलिखित करने की मशीनें ।

(ग) पेपर टेप रीडर ।

(घ) पेपर टेप पंच ।

(ङ) कार्ड रीडर ।

(च) कार्ड पंच ।

(छ) डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर ।

(ज) लाइन प्रिंटर ।

(झ) थर्मल प्रिंटर ।

(ञ) ऑरोग्राफिक प्रिंटर ।

(ii) क्रम सं० 5 के सामने, स्तम्भ (4) में, प्रविष्टि (ii) में, "तत्समान अर्द्धचालक साधन या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो परिपथ" शब्दों के स्थान पर "वैसे ही अर्द्धचालक साधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो परिपथ" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) क्रम सं० 7 के सामने, स्तम्भ (4) में, जहाँ दो स्थानों पर "तत्समान अर्द्धचालक साधन या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो परिपथ" शब्दों के स्थान पर, "वैसे ही अर्द्धचालक साधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो परिपथ" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 39/82-CUSTOMS

G.S.R. 191 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 172—Customs, dated the 8th August, 1977, namely:—

In the Table annexed to the said notification—

(i) for Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
*2.	Sub-heading 60 per cent No. (1) of <i>ad valorem</i> Heading No. 84.51/55	(1) Calculating machines, accounting machines or cash registers containing—thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic microcircuits or capacitors other than paper capacitors;	(1) Calculating machines, accounting machines or cash registers containing—thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic microcircuits or capacitors other than paper capacitors;
		(2) Key Boards of the items specified in entry (1) above;	(2) Key Boards of the items specified in entry (1) above;
		(3) Parts, accessories, or ancillary units, containing thermionic valves or transistors or similar Semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors,	(3) Parts, accessories, or ancillary units, containing thermionic valves or transistors or similar Semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors,
		suitable for use solely or principally, with the items specified in entry (1) above, but excluding.	suitable for use solely or principally, with the items specified in entry (1) above, but excluding.
		(a) Magnetic and optical readers.	(a) Magnetic and optical readers.
		(b) Machines for transcribing data onto data media in coded form.	(b) Machines for transcribing data onto data media in coded form.
		(c) Paper tape readers.	(c) Paper tape readers.
		(d) Paper tape punch.	(d) Paper tape punch.
		(e) Card readers.	(e) Card readers.
		(f) Card punch.	(f) Card punch.
		(g) Dot matrix printers.	(g) Dot matrix printers.
		(h) Line printers.	(h) Line printers.
		(i) Thermal printers.	(i) Thermal printers.
		(j) Xerographic printers.”	(j) Xerographic printers.”

(ii) against Sl. No. 5, in column (4), in entry (ii), for the words “similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits”, the words “similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic micro-circuits”, shall be substituted;

(iii) against Sl. No. 7, in column (4), for the words “similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits”, in the two places where they occur, the words “similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic micro-circuits” shall be substituted.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 40/82-सीमाशुल्क

सां० कां० नि० 194(प्र) :—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 28-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिकारित करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है इससे उपायय सारणी में विनिर्दिष्ट और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 84.51/55 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य का 60 प्रतिशत से अधिक है।

सारणी	
क्रम सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	चुम्बकीय और आर्टिकल रीडर
2.	कोड लिपि में डाटा और डाटा माध्यम में प्रतिलिखित करने की मशीनें
3.	पेपर टेप रीडर।
4.	पेपर टेप पंच।
5.	कार्ड रीडर
6.	कार्ड पंच।
7.	डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
8.	लाइन प्रिंटर।
9.	थर्मल प्रिंटर।
10.	जीरोग्राफिक प्रिंटर।

[फा० सं० बजट सी० शु०/82]

No. 40/82-CUSTOMS

G.S.R. 194 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28—Customs, dated the 1st March, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table hereto annexed and falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 84.51/55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable therein on which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 60 per cent *ad valorem*.

TABLE

Sl. No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Magnetic and optical readers
2.	Machines for transcribing data onto data media in coded form
3.	Paper tape readers
4.	Paper tape punch
5.	Card readers
6.	Card punch
7.	Dot matrix printers
8.	Line printers
9.	Thermal printer
10.	Xerographic printers.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 41/82-सीमा शुल्क

(1)

(2)

(3)

(4)

सा० का० नि० 195(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 174-सीमाशुल्क, तारीख 8 अगस्त, 1977, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "तत्समान अर्ध-चालक या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ" शब्दों के स्थान पर "तत्समान अर्ध-चालक युक्तियों या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ" शब्द रखे जाएंगे।

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 41/82—CUSTOMS

G.S.R. 195 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 174—Customs, dated the 8th August, 1977, namely:—

In the said notification, for the words "similar semi-conductor devices or electronic micro-circuits", the words "similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic microcircuits" shall be substituted.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 42/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 196(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निर्देश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचना का जो इससे उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, ऐसी रीति से जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	179-सीमाशुल्क, तारीख 4 सितम्बर, 1980	उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में, "पुर्जों को" शब्दों के स्थान पर "पुर्जों को (जिनके अन्तर्गत डायोड, तापायनिक वाल्व, ट्रांजिस्टर, वैसे ही अर्ध-चालक साधन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ, पेपर संचारित्र या उनके कोई संयोजन या अन्य पुर्जों के साथ उनके संयोजन नहीं हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
2.	231-सीमाशुल्क, तारीख 27 नवम्बर, 1980	उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में, "(डायोड, ट्रांजिस्टर और समरूप अर्धचालक यंत्रों तथा प्रकाश फैलाने वाले डायोड से भिन्न) पुर्जों को" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "पुर्जों को

(जिनके अन्तर्गत डायोड, तापायनिक वाल्व, ट्रांजिस्टर, वैसे ही अर्ध-चालक साधन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ, पेपर संचारित्र से भिन्न संचारित्र या उनके कोई संयोजन या अन्य पुर्जों के साथ उनके संयोजन नहीं हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 42/82—CUSTOMS

G.S.R. 196 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) or the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	179—Customs, dated the 4th September, 1980.	In the said notification, in the opening portion, for the word "parts" the words and brackets "parts (excluding diodes thermionic valves, transistors, similar semi-conductor devices, light emitting diodes, electronic micro-circuits, capacitors other than paper capacitors or any combination thereof or with other parts)" shall be substituted.
2.	231—Customs, dated the 27th November, 1980.	In the said notification, in the opening portion, for the words and brackets "parts (other than diodes, transistors and similar semi-conductor devices and light emitting diodes)", the words and brackets "parts (excluding diodes, thermionic valves, transistors, similar semi-conductor devices, light emitting diodes, electronic micro-circuits, capacitors other than paper capacitors or any combination thereof or with other parts)" shall be substituted

[F. No. Bud. (Cus)/82.]

सं० 43/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 197(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के ऐसे शीर्षों के अथवा शीर्षों के उपशीर्षों के जो इसमें उपावृत्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को [जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है], जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्यद्दणीय सीमाशुल्क के उक्त भाग से छूट देनी है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

सारणी

क्रम सीमाशुल्क टैरिफ शुल्क की मात्रा दर माल का वर्णन जिसकी कानूनी दरें सं० अधिनियम, 1975 लागू होंगी
की पहली अनुसूची
का शीर्ष सं० या
शीर्ष सं० का उपशीर्ष सं०

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शीर्ष सं० 85.16 मूल्य का 60 प्रतिशत	पुर्जे जिनमें तापयानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्ध-चालक माधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संचारित्र से भिन्न संचारित्र हैं।	
2.	शीर्ष सं० 85.17 मूल्य का 60 प्रतिशत	पुर्जे जिनमें तापयानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्ध-चालक माधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संचारित्र से भिन्न संचारित्र हैं।	
3.	शीर्ष सं० 85.28 मूल्य का 60 प्रतिशत	पुर्जे जिनमें तापयानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्ध-चालक माधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संचारित्र से भिन्न संचारित्र हैं।	
4.	शीर्ष सं० 90.08 मूल्य का 40 प्रतिशत का उपशीर्ष सं० (1)	पुर्जे या उपमाधन, जिनमें तापयानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्ध-चालक माधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संचारित्र से भिन्न संचारित्र हैं।	
5.	शीर्ष सं० 90.13 मूल्य का 60 प्रतिशत	पुर्जे या उपमाधन, जिनमें तापयानिक वाल्व या ट्रांजिस्टर या वैसे ही अर्द्ध-चालक	

1 2 3 4

माधन या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संचारित्र से भिन्न संचारित्र हैं।

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 43/82-CUSTOMS

G.S.R. No. 197 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, falling under the Heading or sub-headings of the Headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in column (2) of the Table hereto annexed [other than those specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table], when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Heading No. or sub-heading No. of Heading No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Rate of duty	Description of the goods to which statutory rates of duty shall apply
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Heading No. 85.16	60 per cent <i>ad valorem</i>	Parts containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors.
2.	Heading No. 85.17	60 per cent <i>ad valorem</i>	Parts containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors.
3.	Heading No. 85.28	60 Per cent <i>ad valorem</i>	Parts containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic micro-circuits or capacitors other than paper capacitors.
4.	Sub-heading No. (1) of Heading No. 90.08	40 per cent <i>ad valorem</i>	Parts or accessories, containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or light emitting diodes or

1	2	3	4
			electronic microcircuits or capacitors other than paper capacitors.
5. Heading No. 90.13	60 per cent <i>ad valorem</i>	Parts or accessories, containing thermionic valves or transistors or similar semiconductor devices or light emitting diodes or electronic microcircuits or capacitors other than paper capacitors.	

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 44/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उन अध्यायों के, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले उस माल की जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, जब उसका उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और राशि का बंधपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल की ऐसी मात्रा पर, जिसकी वास्तव सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रसू रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है, मांग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न किए जाने की वशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करते समय पहले हो संदत शुल्क के अन्तर के बराबर है ।

सारणी

क्र० सं०	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का अध्याय	माल का वर्णन	निम्नलिखित माल के विनिर्माण के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 28 या 85	ग्रेड ई-25 की सिलोनियम रेक्टिफाइर प्लेटें	सिलोनियम रेक्टिफाइर	
2. 37 या 70	(1) उच्च विभेदन फोटो प्लेटें (2) फोटो मास्क सबस्ट्रेट	उच्च विभेदन फोटो मास्क	
3. 69 या 85	(1) क्लिप जिनके अन्तर्गत लघु क्लिप हैं (2) कांटेक्ट (3) सेरेमिक स्टेटर	स्विच, रिले या चुम्बकीय ध्वनि शोधक	

1	2	3	4
4. 69 या 85	(1) सेरेमिक सबस्ट्रेट (2) सेरेमिक प्लेटें (3) सेरेमिक फ्लैट्स	तापन प्रतिरोधक से भिन्न प्रतिरोधक	
5. 85	इलेक्ट्रान गन के पुर्जें	इलेक्ट्रान गन	
6. 92	चुम्बकीय ध्वनि शोधक के पुर्जें	चुम्बकीय ध्वनि शोधक	

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 44/82-CUSTOMS

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling within the Chapters of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, for the manufacture of the goods specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as in excess of 45 per cent *ad valorem* :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the goods specified in column (3) of the said Table in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the goods specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of the importation.

TABLE

Sl. No.	Chapter in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Description of goods	For the manufacture of goods
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 28 or 85	Selenium Rectifier plates of grade E-25.	Selenium Rectifiers.	
2. 37 or 70	(i) High resolution photo plates (ii) Photo mask substrates.	High resolution photo marks.	
3. 69 or 85	(i) Clips including short clips (ii) Contacts. (iii) Ceramic stator	Switches, relays or magnetic sound heads.	
4. 69 or 85	(i) Ceramic substrates (ii) Ceramic plates. (iii) Ceramic flats.	Resistors other than heating resistors.	
5. 85	Parts of electron guns	Electron guns.	
6. 92	Parts of magnetic sound heads.	Magnetic sound heads.	

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 45/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उस अध्याय के, जो इससे उपायुक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, अन्तर्गत आने वाले उस माल को जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जब उसका उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए,—

(क) उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उक्त भाग से छूट देती है जिसका मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक है; और

(ख) द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त प्रतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जबकि आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और राशि का बंधपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल को ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह माहित नहीं किया गया है कि वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है, मांग किए जाने पर उक्त रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की वशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करने समय पहले हो संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर है।

सारणी

क्रम सं०	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का अध्याय	माल का वर्णन	निम्नलिखित माल के विनिर्माण के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	39	चाक लोडेड एपाक्सी रेजिन	बुम्बकीय ध्वनि शीर्ष
2.	74	बेरिलियम ताम्र की पत्ती	बुम्बकीय ध्वनि शीर्ष

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 45/82-CUSTOMS

G.S.R. 199 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling within the Chapters of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, for the manufacture of the goods specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent *ad valorem*; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act:

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant

Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the goods specified in column (3) of the said Table in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the goods specified in the corresponding entry in Column (4) of the said Table, an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of the importation.

TABLE

Sl. No.	Chapter in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Description of goods	For the manufacture of goods.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	39	Chalk loaded Epoxy resin	Magnetic sound heads.
2.	74	Beryllium copper foil	Magnetic sound heads.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 46/82—सीमा शुल्क

सा० का० नि० 200(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, अपना यह मानधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 116-सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपायुक्त सारणी में —

(क) क्रम सं० 4 और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	39	(i) इपाक्साइड रेजिन (ii) इपाक्साइड रेजिन इन्कस्पूनेट	संचारित, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैम्प और प्रदर्श, त्रुव क्रिस्टल प्रवर्ण, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और ट्यूब, स्विच रिले कांथ के एपाक्सी पटल, डायोड, ट्रांजिस्टर और वैसे ही अर्धचालक राखन, एकीकृत परिपथ, लाइन और तरंग दृप या विभवमापी ।” ;

(ख) क्रम सं० 5 और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) क्रम सं० 6, 16 और 17 और उनमें सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	39	(i) एमिटल समबहुलक (ii) एमिटल समबहुलक	डायोड, ट्रांजिस्टर और वैसे अर्धचालक साधन, इलेक्ट्रॉनिक

1	2	3	4
			बाल्ब और द्युब जिनके अन्तर्गत टेलिविजन पिकचर द्युब हैं, कैपेसिटर, चुम्बकीय टेप, तापन प्रतिरोधक से भिन्न प्रतिरोधक, संवाहक, अत्युच्च, रिजि. स्विच, लाउडस्पीकर, टेप डेक मैकेनिज्म, पिक-अप कार्ट्रिज, स्टाइलस या 12 वोल्ट तक और 20 वाट रेटिंग से अधिक रेटिंग वाली डी सी माइक्रोमीटर ।”
“16.	74 या 85	(i) आक्सीजनमुक्त उच्च चालकता वाले तांबे के तार, शलाकाएं, छड़ें, कोण, आधार और कट (सेक्शन), प्लेट, रीट, पॉलियो. द्युब और पाइप	डायोड, ट्रांजिस्टर और वेबे ही अर्द्धचालक संयोजन, एकीकृत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक बाल्ब या सेमिड्राइ ट्रांजिस्टर हेडर या प्रतिरोधक (तापन प्रतिरोधक से भिन्न)” ।
		(ii) आक्सीजनमुक्त उच्च चालकता वाले तांबे से बने भाग (पाटे)	
“17.	74	तांबे की पन्थिया (म.टी या असंयोजक लेपित)	फेनेलिक या कांच के इपॉक्सी तांबे के आच्छादित पटल” ।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 46/82—CUSTOMS

G.S.R.-200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 116—Customs, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said notification—

(a) for Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	39	(i) Epoxide resin (ii) Epoxide resin encapsulants	Capacitors, light emitting diode lamps and displays, liquid crystal displays, electronic valves and tubes, switches, relays, glass epoxy laminates, diodes transistors and similar semi-conductor devices, integrated circuits, line and wave traps or potentiometers.”;

(b) Sl. No. 5 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) for Sl. Nos. 6, 16 and 17 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and the entries shall respectively be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“6.	39	(i) Acetal copolymer (ii) Acetal Homopolymer	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, electronic valves and tubes including television picture tubes, cassettes, magnetic tape, resistors other than heating resistors, capacitors, connectors, relays, switches, loudspeakers, tape deck mechanism, pick up cartridges, stylus or DC micro-motors of voltage rating upto 12 Volts and not exceeding 20 Watts rating”.
“16.	74 or 85	(i) Oxygen free high conductivity copper wire, bars, rods, angles, shapes and sections, plates, sheets, strips, tubes and pipes. (ii) Part made of oxygen free high conductivity copper.	Diodes transistors and similar semi-conductor devices, integrated circuits, electronic valves and tubes, magnets transistor headers or resistors (other than heating resistors)”.
“17.	74	Copper foil (Plain or adhesive coated).	Phenolic or glass epoxy copper clad laminates.”.

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 47/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 201(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 117-सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्या 16 और 21 और उनके सम्बन्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएँगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“16.	75	सभी प्रकार की, पिटवो, संवाहक, डायोड, ट्रांजिस्टर व वॉल्यूम प्रदर्शक और निरूपक मिश्र धातुएं और उनकी वस्तुएं	और वेबे ही अर्द्धचालक माध्यम, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैम्प और प्रदर्शक इलेक्ट्रॉनिक बाल्ब और द्युब जिनके अन्तर्गत टेलिविजन पिकचर द्युब हैं;

1	2	3	4
			मैग्नेट्रोन, एकस-किरण द्यूब, माइक्रो सूक्ष्म-तरंग द्यूब, पिक अप कार्ट्रिज, स्टाइलस, 12 वोल्ट तक और 20 वाट रेटिंग से अनधिक वोल्टता रेटिंग वाली वी सी माइक्रो मोटर, बलवां मिश्र धातु स्थायी चुम्बक, स्विच, रिले, प्रतिरोधक (तापन प्रतिरोधक से भिन्न) या चुम्बकीय ध्वनि शीर्ष ।”
“21.	84. (i) एकीकृत परिपथ 85 (ii) स्पंद ट्रांसफार्मर या (iii) संधारित्र 92 (iv) तापन प्रतिरोधक से भिन्न प्रतिरोधक (v) सूक्ष्म समंजक (vi) डिस्क्रेट (vii) फेराइट स्मृति कोइ (viii) डायोड व्यूह (ix) निम्नलिखित मदों के पुर्जों (जो तपायनिक बाल्ब या ट्रांजिस्टर या वीसे ही अर्ध चालक-साधन या प्रकाश उत्स-मर्जक डायोड या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ या पेपर संधारित्र से भिन्न संधारित्रों के पुर्जों से भिन्न हैं) अर्थात्:— (क) लाइन प्रिंटर (ख) मैट्रिक्स प्रिंटर (ग) टेलिटाइप टर्मिनल (घ) ग्राफिक टर्मिनल (ङ) कागजी टेप रीडर (च) कार्ड रीडर (छ) चुम्बकीय टेपवाहन या नियंत्रक (ज) पुलोपी डिस्कवाहन या नियंत्रक (झ) चुम्बकीय डिस्कवाहन या नियंत्रक (ञ) आलेखित्र (ट) प्रिंटर आलेखित्र (ठ) कागजी टेप पंच (ड) कार्ड पंच	सूक्ष्म संसाधित्र पर आधा-रित लेखा मशीन या बीजक बनाने की मशीन, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित कैश रजिस्टर, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित रित परिकलित, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित रित फोटो कंपोजिंग और टाइप सेटिंग मशीन, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित डाटा लॉगिंग या डाटा प्रविष्टि और धूरमिति पर आधारित पद्धति, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित आउटलाइन डाटा अर्जन और मानीटरन उपस्कर, सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित अभिज कैशोड किरण द्यूब, सूक्ष्म-संसाधित्र पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड, कंप्यूटर, कंप्यूटर उपांत साधन, लेखा मशीन या बीजक बनाने की मशीन के उपांत साधन, कैश रजिस्टर के उपांत साधन, परि-कलित के उपांत साधन या फोटो कंपोजिंग और टाइप सेटिंग मशीन के उपांत साधन ।”	

[का० सं० ---वज्रट (सी०शु०)/82]

No. 47/82—CUSTOMS

G.S.R. 2081(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of

1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117—Customs, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said notification, for Sl. Nos. 16 and 21 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall respectively be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“16.	75	Nickel and Nickel alloys, wrought, in all forms and articles thereof.	Capacitors, diodes, transistors and similar semi-conductor devices, light emitting diode lamps and displays, liquid crystal displays, electronic valves and tubes including television picture tubes, magnetrons, X-ray tubes, micro-wave tubes, Pick up cartridges, stylus, DC micromotors of Voltage rating upto 12 Volts and not exceeding 20 Watts rating, cast alloy permanent magnets, Switches, relays, transistor headers, resistors (other than heating resistors) or magnetic sound heads.”
“21.	84, 85 or 92	(i) Integrated circuits (ii) Pulse transformer (iii) Capacitors (iv) Resistors other than heating resistors (v) Trimmers (vi) Diskettes (vii) Ferrite memory cores (viii) Diode arrays (ix) Part (other than parts containing thermionic valves or transistors or similar semi-conductor devices or light emitting diodes or electronic microcircuits or capacitors) (other than paper capacitors), of the following items, namely :— (a) Line printers (b) Matrix printers (c) Teletype terminals (d) Graphic terminals (e) Paper tape reader	Microprocessor based accounting or invoicing machines, microprocessor based cash registers, microprocessor based calculators, microprocessor based photo composing and type setting machine, microprocessor based data logging or data entry and telemetry based systems, microprocessor based online data acquisition and monitoring equipment, microprocessor based intelligent cathode ray tubes, microprocessor based electronic keyboards, computers, computer peripheral devices, peripheral devices of accounting or invoicing machines, peripheral devices of cash registers, peripheral devices of calculators or peripheral devices of photo

(1)	(2)	(3)	(4)
	(f) Card reader		composing and type
	(g) Magnetic tape drive or controller		setting machines.”.
	(h) Floppy disc drive or controller		
	(i) Magnetic disc drive or controller		
	(j) Plotters		
	(k) Printers plotters		
	(l) Paper tape punch		
	(m) Card punch		

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 48/82—सीमाशुल्क

सा० का० नि० 202(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 29-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 4 और 7 और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	39	निम्नलिखित के माउलिंग चूर्ण और कणिकाएँ—	पालीटेडा फ्लुओरी एथिलीन
	(i)	पालीटेडा फ्लुओरी-एथिलीन	विद्युत् रोधी केबल, पाली-ट्रेटा फ्लुओरी-एथिलीन
	(ii)	फ्लुओरी-एथिलीन-आपिलीन	विद्युत् रोधी तार या पालीटेडा फ्लुओरी एथिलीन खोल (स्लीव)।”
	(iii)	परफ्लुओरी ऐल्काक्सी सहित फ्लुओरो कार्बन	
	(iv)	एथिलीन और ट्रेटा-फ्लुओरो-एथिलीन का सहवहुलक	
“7.	74	(i) फास्कर काँसे की पट्टियाँ	स्विच, रिले, डायोड, ट्रांजिस्टर और वैसे ही
	(ii)	फास्कर काँसे का तार	भर्त-चालक साधन, टेप डैक मैकेनिज्म, अनुयोजक या चुम्बकीय ध्वनि नीचे।”

[का० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 48/82-CUSTOMS

G.S.R., 202 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29-Customs, dated the 1st March, 1981, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for Sl. Nos. 4 and 7 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall respectively be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	39	Moulding powder and granules of	Polytetra fluoroethylene insulated cables,
	(i)	Polytetra fluoroethylene	polytetra fluoroethylene insulated wires or
	(ii)	Fluorinated ethylene-propylene	polytetra fluoroethylene sleeves.”
	(iii)	Fluorocarbons with perfluoroal-koxy	
	(iv)	Copolymer of ethylene and tetra-fluoro-ethylene	
“7.	74	(i) Phosphor bronze strips	Switches, relays, diodes, transistors and similar
	(ii)	Phosphor bronze wire	semi-conductor devices, tape deck mechanism, connectors or magnetic sound heads.”.

[F.No. Bud (Cus)/82]

सं० 49/82—सीमाशुल्क

सा० का० नि० 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 30-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में—

(क) क्रम सं० 1 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,

(ख) क्रम सं० 3 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
“उक.	28	प्रतिरोधी आपट्टक	डायोड, ट्रांजिस्टर और
	29		वैसे ही भर्त-चालक
	या		साधन, एकीकृत परिपथ
	34		या मुद्रित परिपथ बोर्ड।”

(ग) क्रम सं० 5, 6, 7 और 11 और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
“5.	32या 38	(i) आन्तरिक डेग (ii) बाह्य डेग (iii) लैकर	इलेक्ट्रॉनिक वाय्व या द्यूब जिसके अन्तर्गत टेलीविजन पिकचर द्यूब या प्रतिरोधक (तापन प्रतिरोधक से मिला) हैं।”

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	37	(i) फोटो प्रतिरोध (ii) फोटो पॉलिमियर फिल्म	डायोड, ट्रांजिस्टर और जैसे ही शब्द चालक साधन, एकीकृत परिपथ, मुद्रित परिपथ बोर्ड, द्रव क्रिस्टल प्रदर्श, सीमा के फ्रेम या प्रतिरोधक (तापन प्रतिरोधक से भिन्न)।"
"7.	38	सिलिकन सभी प्रकार के किन्तु जिनके अन्तर्गत सिलिकन विसारित चिप नहीं हैं	डायोड, ट्रांजिस्टर और जैसे ही शब्द चालक साधन, एकीकृत परिपथ, एकल क्रिस्टल या बेकर।"
"11.	73	(i) कोबाल मिश्रधातु सभी प्रकार की (ii) निकल-लोहकोबास्ट मिश्रधातु सभी प्रकार की	डायोड, ट्रांजिस्टर और जैसे ही शब्द चालक साधन, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व या ट्यूब जिनके अन्तर्गत टेलीविजन पिक्चर ट्यूब हैं, एकीकृत परिपथ, ट्रांजिस्टर हेडर या ड्रलवा मिश्रधातु स्थाई चुम्बक।"

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 49/82-CUSTOMS

G.S.R. 203(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30-Customs, dated the 1st March, 1981, namely:—

In the Table annexed to the said notification—

- (a) Sl. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) after Sl. No. 3 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3A.	28, 29 or 34	Resist stripper	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, integrated circuits or printed circuit boards."

- (c) for Sl. Nos. 5, 6, 7 and 11 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall respectively be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	32 or 38	(i) Internal dag (ii) External dag (iii) Lacquer	Electronic valves or tubes including television picture tubes or resistors (other than heating resistors)."

1379 G1/81—3.

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	37	(i) Photo resist (ii) Photo Polymer films	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, integrated circuits, printed circuit boards, liquid crystal displays, lead frames or resistors (other than heating resistors)."
"7.	38	Silicon in all forms but excluding silicon diffused chips	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, integrated circuits, singly crystals or wafers."
"11.	73	(i) Kovar alloy in all forms (ii) Nickel-iron-cobalt alloy in all forms	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, electronic valves or tubes including television picture tubes, integrated circuits, transistor headers or cast alloy permanent magnets."

[F.No. Bud/Cus)/82]

सं० 50/82 सीमाशुल्क

सा० का० नि० 204 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 34-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के:—

(क) प्रारम्भिक भाग में, "मूल्य के 30 प्रतिशत" शब्द और शब्दों के स्थान पर "मूल्य के 35 प्रतिशत" शब्द और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सारणी के:—

(i) क्रम सं० 5 के दूसरे स्तम्भ में "फैराइट" शब्द के स्थान पर "फैराइट और संसाधन विनिर्माण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 9 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न लिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

सं० वर्णन

"10. ड्रलवा मिश्रधातु स्थायी चुम्बक के लिए समतली चुम्बकीय ताप उपचार भट्टी।"

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 50/82-CUSTOMS

G.S.R. 204 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34- customs, dated the 1st March, 1981, namely:—

In the said notification—

- (a) in the opening portion, for the figures and words "30 per cent ad valorem", the figures and words "35 per cent ad valorem" shall be substituted;

(b) in the Table—

- (i) in Sl. No. 5, in the second column for the words "ferrites", the words "ferrites and capacitors manufacture" shall be substituted;
- (ii) after Sl. No. 9 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Description
"10.	Isothermal magnetic heat treatment furnace for cast alloy permanent magnets."

[F.No. Bud/Cus/82]

सं० 51/82-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 205(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करने हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 118-सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के,—

(क) प्रारम्भिक भाग में, "मूल्य के 25 प्रतिशत" शब्द और शब्दों के स्थान पर "मूल्य के 30 प्रतिशत" शब्द और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सारणी की—

(1) क्रम संख्या 146 के दूसरे स्तम्भ में, "टेलीविजन ट्यूब और इलेक्ट्रॉन ट्यूब, भर्त चालक के विनिर्माण" शब्दों के स्थान पर "टेलीविजन ट्यूब, इलेक्ट्रॉन जन, चुम्बकीय ध्वनि शीर्ष और भर्त चालक विनिर्माण" शब्द रखे जाएंगे;

(2) क्रम सं० 154 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्र०सं०	वर्णन
155.	चुम्बकीय ध्वनि शीर्षों के विनिर्माण के लिए उच्च गति परिशुद्धता प्रेस (600 स्ट्रोक प्रति मिनट)।
156.	स्टीरियो के लिए चित्रिकरण मशीन या चुम्बकीय ध्वनि शीर्षों के लिए या 12 वोल्ट तक और 20 वाट रेटिंग से अधिक कीलता रेटिंग वाले डी सी माइक्रोमीटरों के विनिर्माण के लिए मोनो टर्मिनल बोर्ड समायोजन।
157.	चुम्बकीय ध्वनि शीर्षों के समायोजन के लिए अर्गोनोमिकली डिजाइन किया गया स्टेशन।
158.	चुम्बकीय ध्वनि शीर्षों के विनिर्माण के लिए अन्तराल पार्थक्यपृष्ठ (गैप इस्टरकेरेन्स) और शीर्ष प्रोफाइलिंग प्रसंस्करण उपस्कर।
159.	चुम्बकीय ध्वनि शीर्षों के लिए प्लेबैक या विलेखन या अभिलेख और प्लेबैक परीक्षण स्टेशन संपूर्ण उपसाधनों के सहित।
160.	पुंज विलेखन मशीन।
161.	ताम्र पत्तियों के उत्पादन के लिए ताम्र पत्ती उत्पादन संयंत्र/संपूर्ण उपसाधनों सहित।
162.	ताम्र पत्ती—परन्व उपचार संयंत्र, संपूर्ण उपसाधनों सहित।
163.	ताम्र लेपित पत्तियों या पटलनों के लिए समाकर्षण संयंत्र, संपूर्ण उपसाधनों सहित।

164. ताम्र लेपित पत्तियों या पटलनों के प्रेस पैकों के निर्वातन और पूर्व शुष्कन के लिए निर्वात शुष्कन कैबिनेट, संपूर्ण उपसाधनों सहित।
165. पटलनों के लिए धाधारी पेपर के अन्तर्भरण के लिए स्वचालित उच्च गति वाणिज्यकरण और [अन्तर्भरण मशीन संपूर्ण उपसाधनों सहित।
166. फेराइट के लिए वायु अन्तराल पेस्टन मशीन।
167. प्लास्टिक फिल्म संचारित्रों के विनिर्माण के लिए ताप प्रेस।
168. प्लास्टिक फिल्म संचारित्रों के विनिर्माण के लिए पराबैंगनी किरण शुष्क।
169. इलेक्ट्रॉन ट्यूब या इलेक्ट्रॉन गन विनिर्माण के लिए धातु वेल्डिंग के लिए स्थल (स्पॉट) वेल्डर मशीन।
170. 12 वोल्ट तक और 20 वाट रेटिंग से अधिक कीलता रेटिंग वाली डी सी माइक्रोमीटर के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एपाक्षी लेपन मशीन।
171. पूर्व अभिलेखित कसेट विनिर्माण के लिए अनुकरण (रिबर्सेशन) यूनिट।
172. पूर्व अभिलेखित कसेट टेपों के विनिर्माण के लिए रज म्यूनन यूनिट या उच्च गति अनुलिपिकरण सिस्टम।
173. लाउडस्पीकरों के पेपर-कोन के विनिर्माण के लिए स्वचालित या भर्त-स्वचालित मोल्डिंग मशीन, संपूर्ण उपसाधनों सहित।
174. बहुस्तरीय मुद्रित परिपथ के विनिर्माण के लिए पटलन प्रेस।
175. डायोडों के लिए प्रोग्रामीय समुद्रापक।
176. भर्त-चालक विनिर्माण के लिए वातावरणीय चेंबर सहित फोटो पुनरावर्तक।
177. भर्त-चालक विनिर्माण के लिए प्लाज्मा निक्षेपण सिस्टम।
178. भर्त-चालक विनिर्माण के लिए धूल स्तर मानिटर या धूम हुड (प्यूम हुड) या धूल भवसेपित।
179. भर्त चालक साधनों के संपुटन के लिए स्वतः ताप नियंत्रित मोल्डिंग प्रेस।
180. संचारित्र विनिर्माण के लिए स्वचालित या भर्त स्वचालित टैब निर्माण और व्यवस्थापन मशीन।
181. संचारित्र विनिर्माण के लिए स्वचालित या भर्त स्वचालित कुंत्सन मशीन।
182. सेरेमिक संचारित्र के लिए तार संरूपण (वायर फॉर्मिंग) मशीन।
183. बातीय पी.सी.वी. सीमा कर्तक।
184. मुद्रित परिपथ बोर्ड पश्य सोल्डर सीसा समाकर्तक मशीन।
185. कलर टी.वी. पटन जेनेरेटर।
186. वीडियो रिस्योम्स जेनेरेटर (बस्ट जेनेरेटर)।
187. लक्स मीटर।
188. एन ग्राह डी मीटर।
189. करेक्टर जेनेरेटर।
190. क्रिस्टल विनिर्माण के लिए ब्लैंक मार्जिक और निक्षारण सिस्टम।
191. क्रिस्टल विनिर्माण के लिए स्वचालित शीन वेल्ड समुद्रण उपस्कर।
192. क्रिस्टलों के लिए घड़ी क्रिस्टल क्वालिटी उपादान (फेक्टर) परीक्षक।
193. क्रिस्टलों के लिए सूक्ष्म संचारित्र नियंत्रित स्वतः ताप संप्रीतक (करेक्टर) परीक्षक (टेस्टर)।
194. क्रिस्टल विनिर्माण के लिए क्वार्टज घड़ी विश्लेषक।
195. भर्त चालक विनिर्माण के लिए मास्क मार्जक (क्लीयर)।

196. धातु चालक विनिर्माण के लिए मैगासोनिक मार्जक ।
197. इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध विश्लेषकों, जिनके अन्तर्गत प्रणालीधक, दुग्ध परीक्षित्र, संशोधित परीक्षित्र, प्रोणका (क्यूबे) परीक्षित्र और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ परीक्षित्र हैं, के लिए विपणन परीक्षण और प्रणालीधक उपकरण ।
198. 12 वोल्ट तक और 20 वाट रेटिंग से अधिक वोल्टता रेटिंग वाले डी सी माइक्रोमोटर के विनिर्माण के लिए द्रव चालित ब्रशिंग मशीन ।”

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 51/82-CUSTOMS

G.S.R. 205 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 118-Customs, dated the 19th June, 1980, namely:—

In the said notification,—

- (a) in the opening portion, for the figures and words “25 per cent advalorem”, the figures and words “30 per cent ad valorem”, shall be substituted;
- (b) in the Table—
- (i) in Sl. No. 146, in the second column, for the words “television tube and electron tube semi-conductor manufacture”, the words “television tube, electron gun, magnetic sound heads and semi-conductor manufacture” shall be substituted;
- (ii) after Sl. No. 154 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Description
“155.	High Speed precision press (600 strokes per minute) for the manufacture of magnetic sound heads.
156.	Stacking machine for stereo or mono terminal board assembly for magnetic sound heads or for the manufacture of DC micromotors of voltage rating upto 12 Volts and not exceeding 20 Watts rating.
157.	Ergonomically designed station for assembly of magnetic sound heads.
158.	Gap interface and head profiling process equipment, complete with accessories for manufacture of magnetic sound heads.
159.	Playback or erase or record and playback test station, complete with accessories, for magnetic sound heads.
160.	Bulk eraser machine.
161.	Copper foil generation plant for production of copper-foil, complete with accessories.
162.	Copper foil after treatment plant, complete with accessories.
163.	Trimming plant for copper coated sheets or laminates, complete with accessories.
164.	Vacuum drying cabinet for evacuating and pre-drying of the presspacks of copper coated sheets or laminates, complete with accessories.
165.	Automatic high speed varnishing or impregnating

1	2
	machine for impregnating base paper for laminates, complete with accessories.
166.	Air gap grinding machine for ferrites.
167.	Thermal press for manufacture of plastic film capacitors.
168.	Ultra violet rays dryer for manufacture of plastic film capacitors.
169.	Spot welder machine for metal welding for electron tube or electron gun manufacture.
170.	Electro static epoxy coating machine for manufacture of D.C. micromotor of voltage rating upto 12 volts and not exceeding 20 Watts rating.
171.	Reverberation unit for pre-recorded cassette manufacture.
172.	Noise reduction unit or high speed duplicating system for manufacture of pre-recorded cassette tapes.
173.	Automatic or semiautomatic moulding machine for manufacture of paper cones for loudspeakers, complete with accessories.
174.	Laminating press for manufacture of multi-layer printed circuit boards.
175.	Programmable sealer for diodes.
176.	Photo repeaters with associated environmental chamber for semiconductor manufacture.
177.	Plasma deposition system for semi-conductor manufacture.
178.	Dust level monitor or Fume hoods or dust precipitators for semi-conductor manufacture.
179.	Automatic temperature controlled moulding press for encapsulation of semi-conductor devices.
180.	Automatic or semi-automatic tab making or setting machine for capacitor manufacture.
181.	Automatic or semi-automatic curling machine for capacitor manufacture.
182.	Wire forming machine for ceramic capacitors.
183.	Pneumatic PCB lead cutters.
184.	Printed circuit board post soldering-lead trimming machines.
185.	Colour TV pattern generator.
186.	Video response generator (Burst generator).
187.	Lux meter.
188.	NID meter.
189.	Character generator.
190.	Blank cleaning and etching system for crystals manufacture.
191.	Automatic cold weld sealing equipment for crystals manufacture.
192.	Watch crystal quality factor tester for crystals.
193.	Microprocessor controlled auto temperature character tester for crystals.
194.	Quartz watch analyser for crystal manufacture.
195.	Mask cleaner for semi-conductor manufacture.
196.	Magasonic cleaner for semi-conductor manufacture.
197.	Special testing and calibration equipments for electronic milk analysers, including calibrator, milko tester, homogenizer tester, cuvette tester and electronic circuit tester.
198.	Hydraulic blanking machine for manufacture of D.C. micromotor of voltage rating upto 12 volts and not exceeding 20 watts rating.”

सं० 52/82-सीमाशुल्क

सां०का०नि० 206(प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 50-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 2, 4 और 7 और उनके सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० बजट (सी०शु०)/82]]

NO. 52/82 (Customs)

G.S.R. No. 206 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50-Customs, dated the 1st March, 1978, namely:—

In the Table to the said notification Sl. Nos. 2, 4 and 7 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 53/82-सीमाशुल्क

सां०का०नि० 207(प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाय सारणी में विनिर्दिष्ट और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 90 के अन्तर्गत आने वाली चलचित्र मशीनों, उपकरणों और यंत्रों को उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य 40 प्रतिशत से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
1.	फिल्म संपादन मशीनें।
2.	पुनः रिकॉडिंग, मसंकेन और ध्वनि अन्तरण उपकरण।
3.	ध्वनि मिश्रण यूनिटें।

[फा० सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 53/82—CUSTOMS

G.S.R. 207 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cinematographic machines, equipments and apparatus, specified in the Table hereto annexed and falling within Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

TABLE

Sl. No.	Description
1.	Film editing machines.
2.	Re-recording, scoring and dubbing equipment.
3.	Sound mixing units.

[F.No. Bnd (Cus)/82]]

सं० 54/82-सीमाशुल्क

सां०का०नि० 208(प्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची भाग सं० 12 के अन्तर्गत आने वाले क्रोमाइट अथवा क्रोमाइटों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उनपर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क की उतनी रकम से जितनी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित ऐसे अथवा क्रोमाइटों के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

[फा० सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 54/82—CUSTOMS

G.S.R. No. 208 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section rule (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts chromite ore and concentrates, falling under Heading No. 12 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the amount of duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 10 per cent of the value of such ore and concentrates determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 55/82-सीमाशुल्क

सां०का०नि० 209 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त पहली अनुसूची कहा गया है) अर्पित माल है, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है:

परन्तु इस अधिसूचना की किसी बात का भारत सरकार को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अधीन, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट माल की बाबत सहायक सीमाशुल्क से की गई छूट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	सहायक सीमाशुल्क की दर
1	2	3
1.	वह माल जिसकी बाबत भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर मूल्य के 60 प्रतिशत या उससे अधिक है किन्तु मूल्य के 100 प्रतिशत से कम है।	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पच्चीस प्रतिशत।

1	2	3
2. वह माल जिसकी वास्तव भारत सरकार की तत्कालीन प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर शुल्क या मूल्य के 60 प्रतिशत से कम है।	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।	
3. वह माल जिसकी वास्तव भारत सरकार की तत्कालीन प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क—	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।	
(i) किसी विनिर्दिष्ट दर पर है, अथवा		
(ii) किसी विनिर्दिष्ट दर या मूल्यानुसार दर में से जो भी, यथास्थिति, न्यून या उच्चतर हो, उस पर है, अथवा		
(iii) किसी विनिर्दिष्ट दर और मूल्यानुसार दर पर है।		
4. कच्चा पेट्रोलियम, जो उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 27.09 के अन्तर्गत आता है।	9.50 रुपए प्रति टन	
5. समाचारपत्रों, पुस्तकों और नियत-कालिक पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए अखबारी कागज जो उक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 48.01/21 के उप-शीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आता है।	275 रुपए प्रति टन	

स्पष्टीकरण:—उपरोक्त मारणों के क्रम सं० 1 और 2 के प्रयोजनों के लिए, 'भारत सरकार की तत्कालीन प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर' अभिव्यक्ति से उन वस्तु के देश के देश के कारण दो या अधिक भिन्न भिन्न शुल्क की दरों के वास्तविकता किसी वस्तु के सम्बन्ध में, शुल्क की वह दर अभिप्रेत है जो उन दरों में उच्चतम है।

[क्र.सं० बज० (सी०शु०)/82]

No. 55/82—CUSTOMS

G.S.R. 209 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto, being goods mentioned in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said First Schedule), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notification.

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
1	2	3
1.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is 60 per cent <i>ad valorem</i> or more but less than 100 per cent <i>ad valorem</i> .	Twenty-five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is nil or less than 60 per cent <i>ad valorem</i> .	Fifteen per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3.	Goods in respect of which the duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is— (i) at a specific rate; or (ii) at a specific rate, or <i>ad valorem</i> rate, whichever is less or higher, as the case may be; or (iii) at a specific rate and <i>ad valorem</i> rate.	Fifteen per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
4.	Crude Petroleum, falling under Heading No. 27.09 of the said First Schedule.	Rs. 9.50 per tonne.
5.	Newspaper, falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 48.01/21 of the said First Schedule, for printing of newspapers, books and periodicals.	Rs. 275 per tonne.

Explanation.—For the purposes of Sl. Nos. 1 and 2 in the above Table, the expression "the rate of duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India, for the time being in force", in relation to any article liable to two or more different rates of duty by reason of the country of origin of that article, means that rate of duty which is the highest of those rates.

[F. No. Bud. (Cus.)/82]

सं० 56/82—सीमाशुल्क

सां०क्रा०नि० 210 (घ) :—केन्द्रिय सरकार, जिस विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड अर्नेतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधिन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान ही जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाखंड सारणी के

स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उस अध्याय या उन अध्यायों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्घर्णीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची का अध्याय सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	7	बाल जिनके अन्तर्गत दली हुई दालें भी हैं।
2.	10	अनाज, जिनके अन्तर्गत दलहिया अनाज भी है।
3.	25	नमक
4.	27	खनिज ग्रीज, जिसके अन्तर्गत पेट्रोधिक्म जेली, ऊंची गति वाला ग्रीजल तेल और शीर्ष सं० 27.10 के उप-शीर्ष सं० (2), (3), (4), (6), (7) और (8) के अन्तर्गत आने वाला माल भी है।
5.	31	शीर्ष सं० 31.02/05(6), 31.02/05(7) और 31.02/05(9) के अन्तर्गत आने वाला माल।
6.	37	शैक्षिक प्रयोजनों के लिए फिल्म स्ट्रिप्स और फिल्म स्लाइड।
7.	39	पालीक्लोराइड रेजिन।
8.	49	करेंसी नोट, मुद्रित पुस्तकें (जिसके अन्तर्गत मुद्रित पुस्तकों के लिए कवर हैं), नियतकालिक पत्रिकाएँ (जिनके अन्तर्गत समाचारपत्र हैं), नक्शे, चार्ट और रेखांक प्रूफ, संगीत पाण्डुलिपियाँ और पुस्तकों की जिल्दबान्दी के लिए विशेष रूप से बनाए गए चित्र।
9.	49 या 99	नमूने, माडल और दीर्घकालीन प्रदर्शन, प्राकृतिक विज्ञान के चित्र, मेडल, प्रार्थना सिक्के और डाक टिकट, चाहे प्रयुक्त या अप्रयुक्त।
10.	55	कपास, कच्ची।
11.	71	शीर्ष सं० 71.02 के उप-शीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आने वाले कोरे हीरे।
12.	72	भारत सरकार के बालू सिक्के।

[फा०सं०वज०(सी०शु०) 82]

No. 56/82-CUSTOMS

G.S.R. 210(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table

annexed hereto and falling within the Chapter or Chapters of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill.

TABLE

Sl. No.	Chapter No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	7	Pulses including broken pulses.
2.	10	Grains including broken grains.
3.	25	Salt.
4.	27	Mineral grease including petroleum jelly, high speed diesel oil, and goods falling under sub-heading Nos. (2), (3), (4), (6), (7) and (8) of Heading No. 27.10.
5.	31	Goods falling under Heading Nos. 31.02/05(6), 31.02/05(7) and 31.02/05(9).
6.	37	Film strips and film slides for educational purposes.
7.	39	Polyvinyl chloride resins.
8.	49	Paper money, printed books (including covers for printed books), periodicals (including newspapers), maps, charts and plans, proofs, music manuscripts and illustrations specially made for binding in books.
9.	49 or 99	Specimens, models and wall diagrams illustrative of natural science, medals, antique coins and postage stamps, whether used or unused.
10.	55	Cotton, raw.
11.	71	Rough diamonds, falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 71.02.
12.	72	Current coin of the Government of India.

[F. No. Bud(Cus)/82.]

सं० 57/82-सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 211 (घ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अपने उपाय सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उस अध्याय या उन अध्यायों के, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्घर्णीय उक्त सहायक सीमाशुल्क से जितना द्वितीय वर्गित अधिनियम की

धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मूल्य के वस प्रतिगत से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं० सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का अध्याय सं०	माल का वर्णन
--	--------------

(1)	(2)	(3)
1.	40 शीर्ष सं० 40.05/16 के उपशीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत आने वाला माल।	
2.	48 शीर्ष सं० 48.01/21 के अन्तर्गत आने वाले स्टीरियो प्लॉग।	
3.	51 शीर्ष सं० 51.01/03 के अन्तर्गत आने वाले पालिएस्टर फिलामेंट सूत, पालिएस्टर मोनोफिल और पालिएस्टर पट्टियाँ।	
4.	69 शीर्ष सं० 59.16/17 के अन्तर्गत आने वाला माल।	
5.	71 औद्योगिक हीरे।	
6.	74 विद्युत अपघटन ताँबे की छड़ें या काप्री ताँबे की छड़ें (कुडली में)।	
7.	82 लैबर शोधन मशीन के लिए ब्रेड (हाईड्रॉलिक) जो शीर्ष सं० 82.06 के अन्तर्गत आने हैं।	
8.	84(1) स्थिर या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजन और ऐसे स्थिर या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजन के पुर्जों जिनमें वे इंजन और पुर्जे नहीं हैं जिन्हें मोटरगाड़ों के प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बढे जा सकते हैं और जो नीचे की मद (2) में विनिर्दिष्ट में निम्न हैं।	
	(2) औद्योगिक और कृषि ट्रेक्टरों और विद्युत टिलरों के लिए अन्तर्दहन पिस्टन इंजन और उनके पुर्जे जिनमें वे इंजन और पुर्जे नहीं हैं जो अन्य मोटरगाड़ों के प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बढे जा सकते हैं।	
	(3) समूही इंजन और उनके पुर्जे जिनमें वे इंजन और पुर्जे नहीं हैं जो मोटरगाड़ों के प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बढे जा सकते हैं और जो ऊपर की मद (2) में विनिर्दिष्ट से निम्न हैं।	
9.	84 शीर्ष सं० 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08(1), 84.09, 84.10(1), 84.11(1), 84.11(4), 84.13, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1), 84.24(1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30(2), 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38(1), 84.39, 84.40(1), 84.41(1), 84.42(1), 84.42(2), 84.44, 84.45, 84.48, 84.49, 84.56, 84.57 और 84.59 (2) के अन्तर्गत आने वाला माल।	
10.	84 शीर्ष सं० 84.14 के अन्तर्गत आने वाले पुर्जे।	
11.	84 शीर्ष सं० 84.22 के अन्तर्गत आने वाला माल किन्तु जिनके अन्तर्गत विद्युत नहीं हैं।	

(1)	(2)	(3)
12.	84 शीर्ष सं० 84.23 के अन्तर्गत आने वाला माल किन्तु जिनके अन्तर्गत पेट्रोलियम और गैस के गुण खोने के उपस्कर और उनके पुर्जे नहीं हैं।	
13.	84 शीर्ष सं० 84.31 के अन्तर्गत आने वाला माल किन्तु जिनके अन्तर्गत कागज बनाने की मशीनरी और उनके संघटक पुर्जे नहीं हैं।	
14.	84 शीर्ष सं० 84.66 के अन्तर्गत आने वाला माल।	
15.	85 शीर्ष सं० 85.10 (1), 85.02(1), 85.18/27(3) और 85.18/27(7) के अन्तर्गत आने वाला माल किन्तु जिनके अन्तर्गत टर्बो आस्टरनेटर और उनके पुर्जे नहीं हैं।	
16.]	85 औद्योगिक और प्रयोगशाला विद्युत मट्टियों और चुम्बकों से निम्न शीर्ष सं० 85.11 के उपशीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत आने वाला माल।	
17.	86 लोकोमोटिव और ट्रेडर तथा ऐसे लोकोमोटिव और ट्रेडरों के पुर्जे।	
38.	87 ट्रेक्टर और फायर इंजन तथा ऐसे ट्रेक्टरों और फायर इंजनों के पुर्जे।	
19.	98 कम्पोजिंग स्टिक	

[फा सं० बजट (सी० शु०) /83]
जो श्री वरन, अवर सचिव

NO.57/82-CUSTOMS

G.S.R. 211 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling within the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill as is in excess of ten per cent of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the First mentioned Act.

TABLE

Sl. No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Chapter No.	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	40	Goods falling under sub-heading No. (3) of Heading No. 40.05/16.
2.	48	Stereo flongs falling under Heading No. 48.01/21.
3.	51	Polyester filament yarn, polyester monofil, and polyester strips falling under Heading No. 51.01/03.
4.	59	Goods falling under Heading No. 59.16/17.

(1)	(2)	(3)
5.	71	Industrial diamonds.
6.	74	Electrolytic copper rods or black copper rods (in coil).
7.	82	Blades for leather shaving machine (Hydraulic), falling under Heading No. 82.06.
8.	84	(1) Stationary or industrial internal combustion piston engines and parts of such stationary or industrial internal combustion piston engines excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) below. (2) Internal combustion piston engines for industrial and agricultural tractors and power tillers and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with other motor vehicles. (3) Marine engines and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) above.
9.	84	Goods falling under Heading Nos. 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08(1), 84.09, 84.10(1), 84.11(1), 84.11(4), 84.13, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1), 84.24(1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30(2), 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38(1), 84.39, 84.40(1), 84.41(1), 84.42(1), 84.42(2), 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57 and 84.59(2).
10.	84	Parts falling under Heading No. 84.14.
11.	84	Goods falling under Heading No. 84.22 but excluding power cranes.
12.	84	Goods falling under Heading No. 84.23 but excluding petroleum and gas well drilling equipment and parts thereof.
13.	84	Goods falling under Heading No. 84.31 but excluding paper making machinery and component parts thereof.
14.	84	Goods falling under Heading No. 84.66.
15.	85	Goods falling under Heading No. 85.01(1), 85.02(1), 85.18/27(3) and 85.18/27(7), but excluding turbo alternators and parts thereof.
16.	85	Goods falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 85.11, other than industrial and laboratory electric furnaces and ovens.
17.	86	Locomotives and tenders and parts of such locomotives and tenders.
18.	87	Tractors and fire-engines and parts of such tractors and fire-engines.
19.	98	Composing sticks.

[F. No.-Bud(Cus)/82.]

सं० 58/82-सीमाशुल्क

सा० का० वि० 212 (घ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधि-

नियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, अपना यह समाधान ही जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपरोक्त मारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उप शीर्ष सं० या शीर्ष सं० के उप-शीर्ष सं० के, जो उक्त मारणी के स्तम्भ (2) में को तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, प्रस्तुत होने वाले माल को, जब उसका भारण में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्-ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का शीर्ष सं० या उसके शीर्ष सं० का उप-शीर्ष सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	04.01/04	शुष्क मखनिया वृक्ष अर्थात् शुष्कित दुग्ध चूर्ण जिसमें 4 प्रतिशत से अधिक वसा हो और कोई मिश्रित अवयव न हो।
2.	08.01/13	पूरा फल और अंगूर मात्र।
3.	08.01/06(2)	चरबी
4.	15.07(1)	रेपसीड का तेल
5.	15/07(2)	सोयाबीन का तेल
6.	21.01/07	शिशुओं और अशक्त व्यक्तियों के लिए दुग्ध माहुर, डिब्बा बन्द या बोतल बन्द
7.	25.01/32(11)	सल्फर (कच्चा)
8.	31.02/05(4)	अमोनियम सल्फेट
9.	31.02/05(7)	सोडियम नाइट्रेट जिसमें नाइट्रोजन भार के आधार पर 16.3 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
10.	69.01/02	औद्योगिक मट्टी के संघटक पुर्जों के रूप में प्रयोग के लिए विशेष आकार या क्वालिटी की उच्चताप सह ईंट
11.	70.19	कांच के मनके और झूटे मोती
12.	82.05	धातु के कार्यकारी हाथ के औजारों के लिए विनमेष औजार
13.	84.06	धिसानों में प्रयोग के लिए परिकल्पित अत्यंत हल पिस्टन इंजन और ऐसे इंजनों के पुर्जे
14.	84.14 या 85.11(1)	औद्योगिक और प्रयोगशाला मट्टी और चूल्हे, गैर विद्युत या विद्युत।
15.	84.31	कागज बनाने की मशीनरी और उसके संघटक पुर्जे।
16.	84.43	कम्बर्टर, गैडल, मिल्ली, माउण्ड और उसाई की मशीन, इसका प्रकार की जो धातुकी में और धातु फाउंड्री में प्रयोग की जाती है; उसके पुर्जे

1	2	3	4
17. 85.01(1)		टर्बो आल्टरनेटर और उनके पुर्जे	
18. 90.19		विद्युत धरण संधि-यंत्र	
19. 90.28(1) या 90.21(2)	या	250 वोल्ट से अधिक के स्विच बोर्डों पर आरोपण के लिए परिकल्पित वोल्टमीटर।	

[फा० सं० बजट (मी० शु०)/82]

No. 58/82-CUSTOMS

G.S.R. 212(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under Heading No. or sub-heading No. of Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill.

TABLE

Sl. Heading No. or No. sub-heading No. of Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.	Description of goods.
(1)	(2)
1. 04.01/04	Dried skim milk, that is to say, dried milk powder containing not more than 4 per cent of fat and no added ingredients.
2. 08.01/13	Prunes and grapes, fresh.
3. 15.01/06(2)	Tallow.
4. 15.07(1)	Rapeseed oil.
5. 15.07(2)	Soyabean oil.
6. 21.01/07	Milk foods for infants and invalids, canned or bottled.
7. 25.01/32(11)	Sulphur (Crude).
8. 31.02/05(4)	Ammonium sulphate.
9. 31.02/05(7)	Sodium nitrate, containing not more than 16.3% by weight of nitrogen.
10. 69.01/02	Refractory bricks of special shape or quality for use as component parts of industrial furnances.
11. 70.19	Glass beads and false pearls.
12. 82.05	Interchangeable tools for metal working handtools.
13. 84.06	Internal combustion Piston engines designed for use in aeroplanes and parts of such engines.
14. 84.14 or 85.11(1)	Industrial and laboratory furnances and ovens, non-electric or electric.
15. 84.31	Paper making machinery and component parts thereof.

(1)	(2)	(3)
16. 84.43		Convertors, ladles, ingots, moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy and in metal foundries; parts thereof.
17. 85.01(1)		Turbo alternators and parts thereof.
18. 90.19		Electric hearing
19. 90.28(1) or 90.28(2)		Voltmeters designed for mounting on switch-boards of over 250 volts.

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 50/82-सीमा शुल्क

सांकांमि० 213(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके उपायद्वारा सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० या शीर्ष सं० के उप-शीर्ष सं० के, जो उस सारणी के स्तम्भ (2) में की तरस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उदयहर्णीय उतने सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तरस्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

सारणी

क्रमसं०	सीमाशुल्क	माल का वर्णन	सहायक सीमाशुल्क की दर
1	2	3	4
	टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची का शीर्ष संख्या या उसके शीर्ष सं० का उप-शीर्ष सं०		
1.	25.01/32(8)	खनिज फास्फेट, प्राकृतिक जो उस रूप में आयात किए गए हों जिसे यह प्रतीत हो कि वे उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए हैं किन्तु उनके अन्तर्गत शेष फास्फेट नहीं हैं।	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के
2.	47.01	गुब्ब, जिसके अन्तर्गत काष्ठ गूदा नहीं हैं।	मुख्य का पाँच प्रतिशत।
3.	77.01/03	मेन्थिलियम और मेन्थिलियम मिश्रधातु, अलगका।	
4.	84.32	विद्युत क्रेन।	
5.	84.23	पेट्रोलियम और गैस के कुएं खोदने के उपकरण और उसके पुर्जे।	

1	2	3	4	1	2	3	4
6. 90.22	भौगोलिक सामग्रियों (उदाहरणार्थ, धातु, कोयला, टैक्सटाइल, कागज या प्लास्टिक) की कठोरता, शक्ति, संपीड़्यता, प्रत्यास्थता और वैसे ही अन्य गुणों या यांत्रिक रूप से परीक्षण करने के लिए मशीनें और संश्लिष्ट और ऐसी मशीनों और माथितों के पुर्जे।					रूप शीर्ष सं० 90.14, (1962 का 52) शीर्ष सं० 90.16 के उपशीर्ष सं० (1), शीर्ष सं० 90.23 के उपशीर्ष सं० (2), शीर्ष सं० 90.24 के उपशीर्ष सं० (2) या शीर्ष सं० 90.27 के अन्तर्गत आते हैं।	की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।
7. 90.25	शीर्ष सं० 90.25 के उपशीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत आने वाला माल।			13. 90.28	विद्युत उपकरण और यंत्र, जिनके गैर-विद्युत प्रति-रूप शीर्ष सं० 90.25 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आते हैं।	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का बीस प्रतिशत।	
8. 90.28	सं० शीर्ष सं० 90.28 के उपशीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत आने वाला माल किन्तु जिसके अन्तर्गत 250 बोर्ड से अधिक के स्विच बोर्डों पर आरोपण के लिए परिकल्पित बोल्डमीटर नहीं हैं।	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।					[फा० सं०—बजट (सी० शु०)/82] जे० श्रीधरन, अवसर सचिव
9. 90.28	शीर्ष सं० 90.28 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आने वाला माल किन्तु जिसके अन्तर्गत 250 बोर्ड से अधिक के स्विच बोर्डों पर आरोपण के लिए परिकल्पित बोल्डमीटर नहीं हैं।					No. 59/82-CUSTOMS	
10. 90.28	शीर्ष सं० 90.28 के उपशीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत आने वाला माल	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।					
11. 90.28	विद्युत उपकरण और यंत्र, जिनके गैर-विद्युत प्रति-रूप शीर्ष सं० 90.15, शीर्ष सं० 90.16 के उपशीर्ष सं० (2), शीर्ष सं० 90.22, शीर्ष सं० 90.23 के उपशीर्ष सं० (1), शीर्ष सं० 90.24 के उपशीर्ष सं० (1) या शीर्ष सं० 90.25 के उपशीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत आते हैं।						
12. 90.28	विद्युत उपकरण, और यंत्र, जिनके गैर-विद्युत प्रति-	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962					

G.S.R. 213/ (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under Heading No. or sub-heading No. of Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Heading No. or sub-heading no. of Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 25.01/32(8)	Mineral Phosphates, Natural imported in a form indicative of their use as fertilizers, but excluding rock phosphate	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the	
2. 47.01	Pulp excluding wood pulp.		

1	2	3	4	1	2	3	4
3. 77 01/03	Magnesium and magnesium alloys, unwrought.	Provisions of section 14 of Customs Act, 1962 (52 of 1962).				which fall under sub-heading No. (2) of Heading No. 90.25.	in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
4. 84.22	Power Cranes.						
5. 84.23	Petroleum and gas well drilling equipment and parts thereof.						
6. 90.22	Machines and appliances for testing mechanically the hardness, strength, compressibility, elasticity and the like properties of industrial materials (for example, metals, wood, textiles, paper or plastics) and parts of such machines and appliances.						
7. 90.25	Goods falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 90.25						[F. No. Bud. (cus)/82]
						सं० 60/82 सीमा-शुल्क	
						सा० का० नि० 214 (3अ).--केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तिम कर संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उस माल की जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की या राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचनाओं के आधार पर, जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं, उक्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क के संदाय से छूट देती है :	
8. 90.28	Goods falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 90.28 but excluding Voltmeters designed for mounting on switch-boards of over 250 volts.	Fifteen per cent of the value of the goods as determined in accordance of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).					परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिसूचना में उल्लिखित किसी माल की बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी शर्तों के यदि कोई हों, अधीन होगी जिसके अधीन रहते हुए ऐसे माल उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं।
9. 90.28	Goods falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 90.28 but excluding Voltmeters designed for mounting on switch-boards of over 250 volts.	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).					
10. 90.28	Goods falling under sub-heading No. (3) of Heading No. 90.28						
11. 90.28	Electrical instruments and apparatus, the non-electric counterparts of which fall under Heading No. 90.15, sub-heading No. (2) of Heading No. 90.16, Heading No. 90.22, Sub Heading No. (1) of Heading No. 90.23, sub-heading No. (1) of Heading No. 90.24, or sub-heading No. (1) of Heading No. 90.25.						
12. 90.28	Electrical instruments and apparatus, the non-electric counterparts of which fall under Heading No. 90.14, sub-heading No. (1) of Heading No. 90.16, sub-heading No. (2) of Heading No. 90.23, sub-heading No. (2) of Heading No. 90.24 or Heading No. 90.27	Fifteen per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).					
13. 90.28	Electrical instruments and apparatus, the non-electric counterparts of	Twenty per cent of the value of the goods as determined					
				अधिसूचना			
				1. सं० 2—सीमाशुल्क, तारीख 10 जनवरी, 1953 ।			
				2. सं० 43—सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 1953 ।			
				3. सं० 138—सीमाशुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1956 ।			
				4. सं० 3—सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957 ।			
				5. सं० 113—सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1957 ।			
				6. सं० 220—सीमाशुल्क, तारीख 12 अक्तूबर, 1957 ।			
				7. सं० 65—सीमाशुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958 ।			
				8. सं० 67—सीमाशुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958 ।			
				9. सं० 106—सीमाशुल्क, तारीख 29 मार्च, 1958 ।			
				10. सं० 151—सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 1958 ।			
				11. सं० 259—सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958 ।			
				12. सं० 260—सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958 ।			
				13. सं० 261—सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958 ।			
				14. सं० 262—सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958 ।			
				15. सं० 269—सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958 ।			
				16. सं० 271—सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958 ।			
				17. सं० 273—सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958 ।			
				18. सं० 275—सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958 ।			
				19. सं० 276—सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958 ।			
				20. सं० 117—सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 1961 ।			
				21. सं० 132—सीमाशुल्क, तारीख 9 दिसम्बर, 1961 ।			
				22. सं० 26—सीमाशुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1962 ।			
				23. सं० 138—सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 ।			
				24. सं० 168—सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962 ।			
				25. सं० 169—सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962 ।			
				26. सं० 170—सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962 ।			

- [illegible]

41. सं० 87—सीमाशुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 1979।
42. सं० 90—सीमाशुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1979।
43. सं० 92—सीमाशुल्क, तारीख 26 अप्रैल, 1979।
44. सं० 97—सीमाशुल्क, तारीख 2 मई, 1979।
45. सं० 98—सीमाशुल्क, तारीख 2 मई, 1979।
46. सं० 113—सीमाशुल्क, तारीख 28 मई, 1979।
47. सं० 116—सीमाशुल्क, तारीख 1 जून, 1979।
48. सं० 147—सीमाशुल्क, तारीख 29 जून, 1979।
49. सं० 149—सीमाशुल्क, तारीख 29 जून, 1979।
50. सं० 161—सीमाशुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1979।
51. सं० 173—सीमाशुल्क, तारीख 7 अगस्त, 1979।
52. सं० 175—सीमाशुल्क, तारीख 7 अगस्त, 1979।
53. सं० 178—सीमाशुल्क, तारीख 22 अगस्त, 1979।
54. सं० 190—सीमाशुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 1979।
55. सं० 227—सीमाशुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1979।
56. सं० 232—सीमाशुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1979।
57. सं० 231—सीमाशुल्क, तारीख 5 विगम्बर, 1979।
58. सं० 4—सीमाशुल्क, तारीख 19 जनवरी, 1980।
59. सं० 10—सीमाशुल्क, तारीख 30 जनवरी 1980।
60. सं० 68—सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1980।
61. सं० 74—सीमाशुल्क, तारीख 15 अप्रैल, 1980।
62. सं० 77—सीमाशुल्क, तारीख 17 अप्रैल, 1980।
63. सं० 84—सीमाशुल्क, तारीख 19 अप्रैल, 1980।
64. सं० 86—सीमाशुल्क, तारीख 23 अप्रैल, 1980।
65. सं० 95—सीमाशुल्क, तारीख 9 मई, 1980।
66. सं० 132—सीमाशुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1980।
67. सं० 139—सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 1980।
68. सं० 144—सीमाशुल्क, तारीख 19 जुलाई, 1980।
69. सं० 146—सीमाशुल्क, तारीख 19 जुलाई, 1980।
70. सं० 150—सीमाशुल्क, तारीख 28 जुलाई, 1980।
71. सं० 155—सीमाशुल्क, तारीख 28 जुलाई, 1980।
72. सं० 161—सीमाशुल्क, तारीख 19 अगस्त, 1980।
73. सं० 166—सीमाशुल्क, तारीख 19 अगस्त, 1980।
74. सं० 181—सीमाशुल्क, तारीख 5 सितम्बर, 1980।
75. सं० 201—सीमाशुल्क, तारीख 14 अक्टूबर, 1980।
76. सं० 212—सीमाशुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1980।
77. सं० 215—सीमाशुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1980।
78. सं० 216—सीमाशुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1980।
79. सं० 221—सीमाशुल्क, तारीख 12 नवम्बर, 1980।
80. सं० 243—सीमाशुल्क, तारीख 19 दिसम्बर, 1980।
81. सं० 13—सीमाशुल्क, तारीख 9 फरवरी, 1981।
82. सं० 19—सीमाशुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1981।
83. सं० 22—सीमाशुल्क, तारीख 5 मार्च, 1981।
84. सं० 37—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981।
85. सं० 38—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981।
86. सं० 70—सीमाशुल्क, तारीख 26 मार्च, 1981।
87. सं० 71—सीमाशुल्क, तारीख 26 मार्च, 1981।
88. सं० 89—सीमाशुल्क, तारीख 30 मार्च, 1981।
89. सं० 99—सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1981।
90. सं० 103—सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1981।
91. सं० 110—सीमाशुल्क, तारीख 10 अप्रैल, 1981।
92. सं० 142—सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1981।
93. सं० 166—सीमाशुल्क, तारीख 29 जून, 1981।
94. सं० 184—सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1981।
95. सं० 195—सीमाशुल्क, तारीख 25 अगस्त, 1981।
96. सं० 208—सीमाशुल्क, तारीख 22 सितम्बर, 1981।
97. सं० 219—सीमाशुल्क, तारीख 28 सितम्बर, 1981।

198. सं० 224—सीमाशुल्क, तारीख 1 अक्टूबर, 1981।
199. सं० 235—सीमाशुल्क, तारीख 2 नवम्बर, 1981।
200. सं० 241—सीमाशुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1981।
201. सं० 243—सीमाशुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1981।
202. सं० 265—सीमाशुल्क, तारीख 3 दिसम्बर, 1981।
203. सं० 21—सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982।
204. सं० 28—सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982।

[फा० सं० बजट (सी०गु०)/82]

No. 60/82—CUSTOMS

G.S.R. 214(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts the goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance or in the Department of Revenue and Banking, specified in the Schedule below, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable on such goods under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill :

Provided that the exemption under this notification with respect to any goods mentioned in any notification specified in the said Schedule shall be subject to the conditions, if any, subject to which such goods are exempt by virtue of such notification, either partially or wholly, from the duty of customs specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975.

SCHEDULE

1. No. 2-Customs, dated the 10th January, 1953.
2. No. 43-Customs, dated the 6th June, 1953.
3. No. 136-Customs, dated the 30th November, 1956.
4. No. 3-Customs, dated the 8th January, 1957.
5. No. 113-Customs, dated the 16th May, 1957.
6. No. 220-Customs, dated the 12th October, 1957.
7. No. 65-Customs, dated the 22nd February, 1958.
8. No. 67-Customs, dated the 22nd February, 1958.
9. No. 106-Customs, dated the 29th March, 1958.
10. No. 151-Customs, dated the 10th May, 1958.
11. No. 259-Customs, dated the 11th October, 1958.
12. No. 260-Customs, dated the 11th October, 1958.
13. No. 261-Customs, dated the 11th October, 1958.
14. No. 262-Customs, dated the 11th October, 1958.
15. No. 269-Customs, dated the 25th October, 1958.
16. No. 271-Customs, dated the 25th October, 1958.
17. No. 273-Customs, dated the 25th October, 1958.
18. No. 275-Customs, dated the 25th October, 1958.
19. No. 276-Customs, dated the 25th October, 1958.
20. No. 117-Customs, dated the 13th October, 1961.
21. No. 132-Customs, dated the 9th December, 1961.
22. No. 26-Customs, dated the 19th February, 1962.
23. No. 136-Customs, dated the 29th September, 1962.
24. No. 168-Customs, dated the 8th November, 1962.
25. No. 169-Customs, dated the 8th November, 1962.
26. No. 170-Customs, dated the 8th November, 1962.
27. No. 43-Customs, dated the 1st February, 1963.
28. No. 92-Customs, dated the 9th March, 1963.
29. No. 180-Customs, dated the 20th July, 1963.
30. No. 202-Customs, dated the 24th August, 1963.
31. No. 210-Customs, dated the 7th September, 1963.

32. No. 10-Customs, dated the 16th January, 1965.
33. No. 163-Customs, dated the 16th October, 1965.
34. No. 135-Customs, dated the 20th June, 1966.
35. No. 174-Customs, dated the 24th September, 1966.
36. No. 85-Customs, dated the 5th August, 1967.
37. No. 107-Customs, dated the 19th July, 1969.
38. No. 80-Customs, dated the 29th August, 1970.
39. No. 103-Customs, dated the 5th December, 1970.
40. No. 84-Customs, dated the 11th September, 1971.
41. No. 37-Customs, dated the 18th March, 1972.
42. No. 46-Customs, dated the 25th May, 1974.
43. No. 125-Customs, dated the 2nd August, 1976.
44. No. 130-Customs, dated the 2nd August, 1976.
45. No. 134-Customs, dated the 2nd August, 1976.
46. No. 149-Customs, dated the 2nd August, 1976.
47. No. 150-Customs, dated the 2nd August, 1976.
48. No. 154-Customs, dated the 2nd August, 1976.
49. No. 158-Customs, dated the 2nd August, 1976.
50. No. 160-Customs, dated the 2nd August, 1976.
51. No. 161-Customs, dated the 2nd August, 1976.
52. No. 166-Customs, dated the 2nd August, 1976.
53. No. 173-Customs, dated the 2nd August, 1976.
54. No. 179-Customs, dated the 2nd August, 1976.
55. No. 181-Customs, dated the 2nd August, 1976.
56. No. 184-Customs, dated the 2nd August, 1976.
57. No. 185-Customs, dated the 2nd August, 1976.
58. No. 186-Customs, dated the 2nd August, 1976.
59. No. 187-Customs, dated the 2nd August, 1976.
60. No. 188-Customs, dated the 2nd August, 1976.
61. No. 189-Customs, dated the 2nd August, 1976.
62. No. 195-Customs, dated the 2nd August, 1976.
63. No. 198-Customs, dated the 2nd August, 1976.
64. No. 201-Customs, dated the 2nd August, 1976.
65. No. 204-Customs, dated the 2nd August, 1976.
66. No. 206-Customs, dated the 2nd August, 1976.
67. No. 207-Customs, dated the 2nd August, 1976.
68. No. 208-Customs, dated the 2nd August, 1976.
69. No. 209-Customs, dated the 2nd August, 1976.
70. No. 210-Customs, dated the 2nd August, 1976.
71. No. 213-Customs, dated the 2nd August, 1976.
72. No. 215-Customs, dated the 2nd August, 1976.
73. No. 216-Customs, dated the 2nd August, 1976.
74. No. 218-Customs, dated the 2nd August, 1976.
75. No. 222-Customs, dated the 2nd August, 1976.
76. No. 223-Customs, dated the 2nd August, 1976.
77. No. 236-Customs, dated the 2nd August, 1976.
78. No. 237-Customs, dated the 2nd August, 1976.
79. No. 238-Customs, dated the 2nd August, 1976.
80. No. 241-Customs, dated the 2nd August, 1976.
81. No. 246-Customs, dated the 2nd August, 1976.
82. No. 248-Customs, dated the 2nd August, 1976.
83. No. 249-Customs, dated the 2nd August, 1976.
84. No. 250-Customs, dated the 2nd August, 1976.
85. No. 258-Customs, dated the 2nd August, 1976.
86. No. 271-Customs, dated the 2nd August, 1976.
87. No. 283-Customs, dated the 2nd August, 1976.
88. No. 296-Customs, dated the 2nd August, 1976.
89. No. 299-Customs, dated the 2nd August, 1976.
90. No. 302-Customs, dated the 2nd August, 1976.
91. No. 309-Customs, dated the 2nd August, 1976.
92. No. 310-Customs, dated the 2nd August, 1976.
93. No. 311-Customs, dated the 2nd August, 1976.
94. No. 313-Customs, dated the 2nd August, 1976.
95. No. 315-Customs, dated the 2nd August, 1976.
96. No. 316-Customs, dated the 2nd August, 1976.
97. No. 319-Customs, dated the 2nd August, 1976.
98. No. 320-Customs, dated the 2nd August, 1976.
99. No. 324-Customs, dated the 2nd August, 1976.
100. No. 4-Customs, dated the 6th January, 1977.
101. No. 110-Customs, dated the 1st July, 1977.
102. No. 113-Customs, dated the 1st July, 1977.
103. No. 124-Customs, dated the 1st July, 1977.
104. No. 125-Customs, dated the 1st July, 1977.
105. No. 127-Customs, dated the 1st July, 1977.
106. No. 130-Customs, dated the 1st July, 1977.
107. No. 143-Customs, dated the 16th July, 1977.
108. No. 145-Customs, dated the 9th July, 1977.
109. No. 156-Customs, dated the 16th July, 1977.
110. No. 183-Customs, dated the 22nd August, 1977.
111. No. 211-Customs, dated the 15th October, 1977.
112. No. 231-Customs, dated the 1st November, 1977.
113. No. 242-Customs, dated the 19th November, 1977.
114. No. 245-Customs, dated the 19th November, 1977.
115. No. 11-Customs, dated the 7th January, 1978.
116. No. 68-Customs, dated the 25th March, 1978.
117. No. 70-Customs, dated the 25th March, 1978.
118. No. 76-Customs, dated the 31st March, 1978.
119. No. 81-Customs, dated the 5th April, 1978.
120. No. 86-Customs, dated the 25th April, 1978.
121. No. 101-Customs, dated the 16th May, 1978.
122. No. 102-Customs, dated the 16th May, 1978.
123. No. 103-Customs, dated the 16th May, 1978.
124. No. 115-Customs, dated the 17th June, 1978.
125. No. 117-Customs, dated the 9th June, 1978.
126. No. 120-Customs, dated the 19th June, 1978.
127. No. 122-Customs, dated the 21st June, 1978.
128. No. 127-Customs, dated the 28th June, 1978.
129. No. 164-Customs, dated the 21st August, 1978.
130. No. 195-Customs, dated the 3rd October, 1978.
131. No. 205-Customs, dated the 2nd November, 1978.
132. No. 209-Customs, dated the 10th November, 1978.
133. No. 211-Customs, dated the 10th November, 1978.
134. No. 17-Customs, dated the 25th January, 1979.
135. No. 24-Customs, dated the 27th January, 1979.
136. No. 29-Customs, dated the 10th February, 1979.
137. No. 45-Customs, dated the 1st March, 1979.
138. No. 46-Customs, dated the 1st March, 1979.
139. No. 64-Customs, dated the 6th March, 1979.
140. No. 80-Customs, dated the 31st March, 1979.
141. No. 87-Customs, dated the 12th April, 1979.
142. No. 90-Customs, dated the 28th April, 1979.
143. No. 92-Customs, dated the 26th April, 1979.
144. No. 97-Customs, dated the 2nd May, 1979.
145. No. 98-Customs, dated the 2nd May, 1979.
146. No. 113-Customs, dated the 28th May, 1979.
147. No. 116-Customs, dated the 1st June, 1979.
148. No. 147-Customs, dated the 29th June, 1979.
149. No. 149-Customs, dated the 29th June, 1979.
150. No. 161-Customs, dated the 20th July, 1979.
151. No. 173-Customs, dated the 7th August, 1979.
152. No. 175-Customs, dated the 7th August, 1979.
153. No. 179-Customs, dated the 22nd August, 1979.
154. No. 190-Customs, dated the 7th September, 1979.
155. No. 227-Customs, dated the 30th November, 1979.
156. No. 232-Customs, dated the 5th December, 1979.
157. No. 234-Customs, dated the 5th December, 1979.
158. No. 4-Customs, dated the 19th January, 1980.
159. No. 10-Customs, dated the 30th January, 1980.
160. No. 68-Customs, dated the 1st April, 1980.
161. No. 74-Customs, dated the 15th April, 1980.
162. No. 77-Customs, dated the 17th April, 1980.
163. No. 84-Customs, dated the 19th April, 1980.
164. No. 86-Customs, dated the 23rd April, 1980.
165. No. 95-Customs, dated the 9th May, 1980.
166. No. 132-Customs, dated the 2nd July, 1980.

167. No. 139—Customs, dated the 11th July, 1980.
168. No. 144—Customs, dated the 19th July, 1980.
169. No. 146—Customs, dated the 19th July, 1980.
170. No. 150—Customs, dated the 23rd July, 1980.
171. No. 155—Customs, dated the 28th July, 1980.
172. No. 164—Customs, dated the 19th August, 1980.
173. No. 166—Customs, dated the 19th August, 1980.
174. No. 181—Customs, dated the 5th September, 1980.
175. No. 201—Customs, dated the 14th October, 1980.
176. No. 212—Customs, dated the 1st November, 1980.
177. No. 215—Customs, dated the 1st November, 1980.
178. No. 216—Customs, dated the 1st November, 1980.
179. No. 221—Customs, dated the 12th November, 1980.
180. No. 243—Customs, dated the 19th December, 1980.
181. No. 13—Customs, dated the 9th February, 1981.
182. No. 19—Customs, dated the 26th February, 1981.
183. No. 22—Customs, dated the 5th March, 1981.
184. No. 37—Customs, dated the 1st March, 1981.
185. No. 38—Customs, dated the 1st March, 1981.
186. No. 70—Customs, dated the 26th March, 1981.
187. No. 71—Customs, dated the 26th March, 1981.
188. No. 89—Customs, dated the 30th March, 1981.
189. No. 99—Customs, dated the 1st April, 1981.
190. No. 103—Customs, dated the 1st April, 1981.
191. No. 110—Customs, dated the 10th April, 1981.
192. No. 142—Customs, dated the 16th May, 1981.
193. No. 166—Customs, dated the 29th June, 1981.
194. No. 184—Customs, dated the 1st August, 1981.
195. No. 195—Customs, dated the 25th August, 1981.
196. No. 208—Customs, dated the 22nd September, 1981.
197. No. 219—Customs, dated the 28th September, 1981.
198. No. 224—Customs, dated the 1st October, 1981.
199. No. 235—Customs, dated the 2nd November, 1981.
200. No. 241—Customs, dated the 13th November, 1981.
201. No. 243—Customs, dated the 13th November, 1981.
202. No. 265—Customs, dated the 3rd December, 1981.
203. No. 21—Customs, dated the 28th February, 1982.
204. No. 28—Customs, dated the 28th February, 1982.

[F. No. Bud(Cus)/82.]

सं० 61/82—सीमाशुल्क

सा०का०नि० 215(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खण्ड 44 के उपखण्ड (4), जो खंड अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उस माल को जो भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं के आधार पर जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं, उक्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मूल्य के पांच प्रतिशत में अधिक है, छूट देती है :

परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिसूचना में उल्लिखित किसी माल की बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन होगी जिनके अन्तर्गत रहते हुए ऐसे माल उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं ।

अनुसूची

1. सं० 197—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
2. सं० 240—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
3. सं० 101—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
4. सं० 114—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
5. सं० 115—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
6. सं० 218—सीमाशुल्क, तारीख 7 अक्टूबर, 1977
7. सं० 49—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
8. सं० 243—सीमाशुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 1978
9. सं० 154—सीमाशुल्क, तारीख 4 जुलाई, 1979
10. सं० 114—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980
11. सं० 118—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980

[फा० सं० बजट (सी०नु०) 82]]

No. 61/82—CUSTOMS

G.S.R. 215 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in the Schedule below, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of five per cent of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act :

Provided that the exemption under this notification with respect to any goods mentioned in any notification specified in the said Schedule shall be subject to the conditions, if any, subject to which such goods are exempt by virtue of such notification, either partially or wholly, from the duty of customs specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975.

SCHEDULE

1. No. 197—Customs, dated the 2nd August, 1976.
2. No. 240—Customs, dated the 2nd August, 1976.
3. No. 101—Customs, dated the 1st July, 1977.
4. No. 114—Customs, dated the 1st July, 1977.
5. No. 115—Customs, dated the 1st July, 1977.
6. No. 218—Customs, dated the 7th October, 1977.
7. No. 49—Customs, dated the 1st March, 1978.
8. No. 243—Customs, dated the 26th December, 1978.
9. No. 154—Customs, dated the 4th July, 1979.
10. No. 114—Customs, dated the 19th June, 1980.
11. No. 118—Customs, dated the 19th June, 1980.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 62/82—सीमाशुल्क

सा०का०नि० 216(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि

लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उस माल की जो भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग, और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं के आधार पर, जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त है, उक्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्घरणणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 14 के उपखंड के अनुसार अवधारित मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है :

परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिसूचना में उल्लिखित किसी माल की बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन होगी जिनके अधीन रहने हुए, ऐसा माल उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त है।

अनुसूची

- 1 सं० 165—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 2 सं० 217—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 3 सं० 220—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 4 सं० 225—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 5 सं० 226—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 6 सं० 229—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 7 सं० 230—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 8 सं० 260—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 9 सं० 288—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 10 सं० 290—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 11 सं० 292—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 12 सं० 294—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1970
- 13 सं० 322—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 14 सं० 11—सीमाशुल्क, तारीख 15 जनवरी, 1977
- 15 सं० 23—सीमाशुल्क, तारीख 8 फरवरी, 1977
- 16 सं० 105—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
- 17 सं० 131—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
- 18 सं० 134—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
- 19 सं० 149—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977
- 20 सं० 185—सीमाशुल्क, तारीख 27 अगस्त, 1977
- 21 सं० 200—सीमाशुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1977
- 22 सं० 253—सीमाशुल्क, तारीख 13 दिसम्बर, 1977
- 23 सं० 254—सीमाशुल्क, तारीख 13 दिसम्बर, 1977
- 24 सं० 34—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 25 सं० 36—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 26 सं० 37—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 27 सं० 39—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 28 सं० 43—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 29 सं० 46—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 30 सं० 47—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 31 सं० 48—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 32 सं० 50—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
- 33 सं० 135—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978
- 34 सं० 176—सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1978
- 35 सं० 219—सीमाशुल्क, तारीख 10 नवम्बर, 1978
- 36 सं० 220—सीमाशुल्क, तारीख 10 नवम्बर, 1978
- 37 सं० 240—सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 1978
- 38 सं० 9—सीमाशुल्क, तारीख 13 जनवरी, 1979
- 39 सं० 14—सीमाशुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1979
- 40 सं० 26—सीमाशुल्क, तारीख 31 जनवरी, 1979
- 41 सं० 120—सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1979
- 42 सं० 138—सीमाशुल्क, तारीख 27 जून, 1979

- 43 सं० 191—सीमाशुल्क, तारीख 24 अगस्त, 1979
- 44 सं० 116—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980
- 45 सं० 117—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980
- 46 सं० 192—सीमाशुल्क, तारीख 26 सितम्बर, 1980
- 47 सं० 199—सीमाशुल्क, तारीख 8 अक्टूबर, 1980
- 48 सं० 29—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981
- 49 सं० 30—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981
- 50 सं० 113—सीमाशुल्क, तारीख 23 अप्रैल, 1981
- 51 सं० 150—सीमाशुल्क, तारीख 20 मई, 1981
- 52 सं० 155—सीमाशुल्क, तारीख 28 मई, 1982
- 53 सं० 44—सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
- 54 सं० 45—सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
- 55 सं० 53—सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982

[फा० सं० राजट (सी०शु०) 82]

No. 62/82-CUSTOMS

G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in the Schedule below, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of ten per cent of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act:

Provided that the exemption under this notification with respect to any goods mentioned in any notification specified in the said Schedule shall be subject to the conditions, if any, subject to which such goods are exempt by virtue of such notification, either partially or wholly, from the duty of customs specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975.

SCHEDULE

1. No. 165—Customs, dated the 2nd August, 1976.
2. No. 217—Customs, dated the 2nd August, 1976
3. No. 220—Customs, dated the 2nd August, 1976.
4. No. 225—Customs, dated the 2nd August, 1976.
5. No. 226—Customs, dated the 2nd August, 1976.
6. No. 229—Customs, dated the 2nd August, 1976.
7. No. 230—Customs, dated the 2nd August, 1976.
8. No. 260—Customs, dated the 2nd August, 1976.
9. No. 288—Customs, dated the 2nd August, 1976.
10. No. 290—Customs, dated the 2nd August, 1976.
11. No. 292—Customs, dated the 2nd August, 1976.
12. No. 294—Customs, dated the 2nd August, 1976.
13. No. 322—Customs, dated the 2nd August, 1976.
14. No. 11—Customs, dated the 15th January, 1977.
15. No. 23—Customs, dated the 8th February, 1977.
16. No. 105—Customs, dated the 1st July, 1977.
17. No. 131—Customs, dated the 1st July, 1977.
18. No. 134—Customs, dated the 1st July, 1977.
19. No. 149—Customs, dated the 15th July, 1977.
20. No. 185—Customs, dated the 27th August, 1977.
21. No. 200—Customs, dated the 24th September, 1977.
22. No. 253—Customs, dated the 13th December, 1977.
23. No. 254—Customs, dated the 13th December, 1977.

24. No. 34—Customs, dated the 1st March, 1978
25. No. 36—Customs, dated the 1st March, 1978
26. No. 37—Customs, dated the 1st March, 1978
27. No. 39—Customs, dated the 1st March, 1978
28. No. 43—Customs, dated the 1st March, 1978
29. No. 46—Customs, dated the 1st March, 1978
30. No. 47—Customs, dated the 1st March, 1978
31. No. 48—Customs, dated the 1st March, 1978
32. No. 50—Customs, dated the 1st March, 1978
33. No. 135—Customs, dated the 15th July, 1978
34. No. 176—Customs, dated the 11th September, 1978
35. No. 219—Customs, dated the 10th November, 1978
36. No. 220—Customs, dated the 10th November, 1978
37. No. 240—Customs, dated the 30th December, 1978
38. No. 9—Customs, dated the 13th January, 1979
39. No. 14—Customs, dated the 18th January, 1979
40. No. 26—Customs, dated the 31st January, 1979
41. No. 120—Customs, dated the 2nd June, 1979
42. No. 138—Customs, dated the 27th June, 1979
43. No. 181—Customs, dated the 24th August, 1979
44. No. 116—Customs, dated the 19th June, 1980
45. No. 117—Customs, dated the 19th June, 1980
46. No. 192—Customs, dated the 26th September, 1980
47. No. 199—Customs, dated the 8th October, 1980
48. No. 29—Customs, dated the 1st March, 1981
49. No. 30—Customs, dated the 1st March, 1981
50. No. 113—Customs, dated the 23rd April, 1981
51. No. 150—Customs, dated the 25th May, 1981
52. No. 155—Customs, dated the 28th May, 1981
53. No. 44—Customs, dated the 28th February, 1982
54. No. 45—Customs, dated the 28th February, 1982
55. No. 53—Customs, dated the 29th February, 1982

[F.No. Bud/(Cus)/82.]

सं० 63/82-सोमाशुल्क

सा० का० नि० 217(प्र)।—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सोमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सोमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 37.01/80 के उपशीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक चलचित्र फिल्म, उद्भासित, को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सोमाशुल्क से छूट देती है, जितना,—

(क) चलचित्र फिल्म के प्रिंट की केवल लागत के, और

(ख) ऐसी चलचित्र फिल्म के प्रिंट के संबंध में उपगत केवल माफ़ा और बोमा प्रभार के,

शुल्क के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है।

[फा० सं० बजट (सं० शु०)/82]

No. 63/82-CUSTOMS

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby

exempts every cinematograph film, exposed, falling under sub-heading No. (3) of Heading No. 37.01/80 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of fifteen per cent of the value representing only—

(a) the cost of the print of the cinematograph film; and

(b) the freight and insurance charges incurred in respect of the print of such cinematograph film.

[F.No. Bud(Cus)/82]

सं० 64/82-सोमाशुल्क

सा० का० नि० 218(प्र)।—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सोमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सोमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 73.03/05 के अन्तर्गत आने वाले लौहा या इस्पात के पिघलाने स्क्रैप को (जो स्टेनलेस स्टील या ताप प्रतिरोधक स्टील से भिन्न है), जब उसका इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में प्रयोग के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सोमाशुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि आयात किए गए लौहा या इस्पात के पिघलाने स्क्रैप का (जो स्टेनलेस स्टील या ताप प्रतिरोधक स्टील से भिन्न है) अस्तुत्त इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में प्रयोग किया गया है।

[फा० सं० बजट (सं० शु०)/82]

No. 64/82-CUSTOMS

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts melting scrap of iron or steel (other than stainless steel or heat resisting steel), falling under Heading No. 73.03/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in electric arc furnace, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill:

Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron or steel (other than stainless steel or heat resisting steel) is in fact used in electric arc furnace.

[F.No. Bud(Cus)/82]

सं० 65/82-सोमाशुल्क

सा० का० नि० 219(प्र)।—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सोमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसमें के ऐसे संघटक पुर्तकों को

जिनका शुद्ध भार (जिनके अन्तर्गत शाय-भार नहीं है) घाट टन से अधिक है और जो—

- (1) दस टन या उससे अधिक शाय-भार के लिए; और
- (2) राजमार्ग से भिन्न प्रयोग के लिए,

परिकल्पित है, जब उनका भारत में आयात किया जाए और जिनके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि इम्पोर्ट के विनिर्माण या संयोजन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उसने सहायक सीमाशुल्क से जितना द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित ऐसे पुर्जों के मूल्य के बल प्रतिगत से अधिक है, निम्नलिखित गतों के अन्तर्गत रहते हुए, छूट देती है, यथा—

- (1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की दशा में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक या महाप्रबन्धक अथवा किसी अन्य मामले में उद्योग मंत्रालय का तकनीकी विकास महानिदेशालय यह प्रमाणित कर देता है कि प्रवर्तित संघटक पुर्जों ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित है या होंगे; और
- (2) आयातकर्ता, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्रकल्प में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं की इस बात के लिए आग्रह करता है कि वह ऐसे संघटक पुर्जों की बाबत जिनके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर में समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं होता है कि वे पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग किए गए हैं, सांग किए जाने पर उतनी रकम का संशय करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में ऐसे संघटक पुर्जों पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही संबल शुल्क के बोध के अन्तर के बराबर हो।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 65/82-CUSTOMS

G.S.R. 219 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of dumpers of which the net weight (excluding pay-load) is more than eight tonnes and which is designed for—

- (i) a pay-load of ten tonnes or more; and
- (ii) use off the highway.

when imported into India and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs, to be required for the purpose of manufacture or assembly of dumpers, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of ten per cent of the value of such parts as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act, subject to the following conditions namely:—

- (i) the Managing Director or the General Manager, Bharat Earth Movers Limited in the case of Bharat Earth Movers Limited, or the Directorate General of Technical Development of the Ministry of Industry in any other case, certifies that the component parts in question are or will be required for the purpose specified above; and

- (ii) the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such component parts, as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose an amount equal to the difference between the duty leviable on such component parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of the importation.

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 66/82-सीमाशुल्क

सां० का० नि० 220 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तर्गत कर संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 71.02(1) के अन्तर्गत आने वाले कोरे बिना बड़े हुए बहुमूल्य रत्नों की, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 66/82-CUSTOMS

G.S.R. 220 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts rough uncut precious stones, falling under Heading No. 71.02(1) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill.

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 67/82-सीमाशुल्क

सां० का० नि० 221 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तर्गत कर संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 71.01 के अन्तर्गत आने वाले असंस्कृत सच्चे मोतियों, कल्वरी मोतियों और असंस्कृत कल्वरी मोतियों को (जिनके अन्तर्गत असंस्कृत सच्चे मोतियों और कल्वरी मोतियों को समाविष्ट करने वाले मोतियों के अधिमिश्रण हैं), जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 67/82-CUSTOMS

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of

1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw real pearls, cultured pearls and raw cultured pearls (including admixtures of pearls containing raw real pearls and cultured pearls) falling under Heading No. 71.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill.

[F. No. Bud (Cus)/82]

सं० 68/82-सीमाशुल्क

सां० कां० नि० 222(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड प्रस्तावित कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 73 के अन्तर्गत आने वाले साल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तरे सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्त्वधानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	साल का वर्णन	सहायक सीमाशुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	टिन-प्लेट अपशिष्ट के अपशिष्ट	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा प्रवर्धित मान के मूल्य का 10 प्रतिशत।
2.	कपई रहित लेपित इस्पात पत्तर	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा प्रवर्धित मान के मूल्य का 5 प्रतिशत।
3.	मिश्रधातु इस्पात की चमकीली शलाखाएं (जो स्टेनलेस स्टील या तापरोधक स्टील से भिन्न हैं)	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा प्रवर्धित मान के मूल्य का 20 प्रतिशत।
4.	मिश्रधातु इस्पात (जो स्टेनलेस स्टील या तापरोधक स्टील से भिन्न है) जो शीर्ष सं० 73.06/07 (1), 73.10 (जिसके अन्तर्गत चमकीली शलाखाएं नहीं हैं), 73.11 और 73.12 में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं और शीर्ष सं० 73.15 के उपशीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत आते हैं।	शून्य

(1)	(2)	(3)
5.	स्टेनलेस स्टील या तापरोधक स्टील के पिघलन स्क्रैप।	शून्य

[का० बजट (सी० शु०)/82]

No. 68/82-CUSTOMS

G.S.R. No. 222 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table below and falling within Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of the clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
(1)	(2)	(3)
1.	Tinplate waste waste	10 per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2.	Tin-free coated steel sheets	5 per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of sections 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3.	Bright bars of alloy steel (other than stainless steel or heat-resisting steel)	20 per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
4.	Alloy steel (other than stainless steel or heat-resisting steel) in the forms specified in Heading Nos. 73.06/07(1), 73.10 (excluding bright bars), 73.11 and 73.12 and falling under sub-heading No. (1) of heading No. 73.15.	Nil
5.	Melting scrap of stainless, steel or heat-resisting steel.	Nil

[F. No. Bud(Cus)/82.]

सं० 69/82-सीमाशुल्क

सां० कां० नि० 223(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड प्रस्तावित कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकाहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारी कमर्शियल मोटरयानों, मध्यम कमर्शियल मोटरयानों या हल्के कमर्शियल मोटरयानों के जहाँ ऐसे मोटरयानों का प्रयोग व्यक्तियों, माल या सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता है वहाँ, अथवा ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को, और ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल को, जो मूल कच्ची सामग्री से भिन्न है, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना द्वितीय धर्णीत अधिनियम, की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार प्रवर्धित मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, यर्थात् :—

- (i) इसमें विनिर्दिष्ट छूट के बल उन्हीं संघटकों को और ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल को जो कच्ची सामग्री से भिन्न हैं लागू होंगी जो तकनीकी विकास महाविशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार और भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रमाणित सूचियों के अन्तर्गत आते हैं ;
- (ii) आयातकर्ता संघटकों या माल की निकासी के समय सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष यह साक्ष्य पेश करता है कि उसके पास यथा स्थिति ऐसे मोटरयानों के जो व्यक्तियों, माल और सामग्रियों के परिवहन के लिए हैं या ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए अथवा ऐसे यानों के लिए संघटकों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय और तकनीकी विकास महाविशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कार्यक्रम है ; और
- (iii) आयातकर्ता ऐसी अवधि के भीतर जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, तकनीकी विकास महाविशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार से इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करता है कि आयात किए गए संघटकों या माल का प्रयोग ऐसे मोटरयानों के जो व्यक्तियों माल या सामग्रियों के परिवहन के लिए हैं या ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए अथवा ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए किया गया है जिनका प्रदाय यथास्थिति, भारी कमर्शियल मोटरयानों मध्यम कमर्शियल मोटरयानों या हल्के कमर्शियल मोटरयानों के अथवा ट्रैक्टरों के उत्पादन में लगे हुए विनिर्माताओं को किया गया है ।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी ।

[फा० सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 69/82-CUSTOMS

G. S. R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the components required for the manufacture of heavy commercial motor vehicles, medium commercial motor vehicles or light commercial motor vehicles, where any such motor vehicles are used for the transport of persons, goods or materials or of tractors and goods, other than basic raw

materials, required for the manufacture of such components, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of ten per cent of the value of such components or goods, as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act, subject to the following conditions, namely :—

- (i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components and goods, other than basic raw materials, required for the manufacture of such components, which are covered by lists certified both by the Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development of the Ministry of Industry and the Department of Heavy Industry;
- (ii) the importer produces evidence to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the components or the goods that they have a programme duly approved by the Ministry of Industry and the Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development of the Ministry of Industry, for the manufacture of such motor vehicles for the transport of persons, goods or materials or of tractors or for the manufacture of components for such vehicles, as the case may be; and
- (iii) the importer produces, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, a certificate from the Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development of the Ministry of Industry to the effect that the imported components or the goods have been used in the manufacture of motor vehicles for the transport of persons, goods or materials or of tractors, or for the manufacture of such components which have been supplied to the manufacturers engaged in the production of heavy commercial motor vehicles, medium commercial motor vehicles or light commercial motor vehicles or of tractors, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1982.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 70/82-सीमाशुल्क

सं० फा० नि० 224(ख):—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकाहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1973 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है ।

सारणी

क्रम	सीमाशुल्क सं० टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का अध्याय सं०	माल का वर्णन	सहायक सीमाशुल्क की दर
1	2	3	4
1.	26	शीर्ष सं० 26.01 के अन्तर्गत आने वाले सीसा सामान	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पाँच प्रतिशत।
2.	39	शीर्ष सं० 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाले निम्न घनत्व और मध्यम घनत्व वाले पालीएथिलीन माउलिंग पाउडर और ग्रेन्युल	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।
3.	39	शीर्ष सं० 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाले पालीप्रोपिलीन	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का बीस प्रतिशत।
4.	56	शीर्ष सं० 56.01/04 के अन्तर्गत आने वाले पालीएस्टर फाइबर और ऐक्रिलिक फाइबर	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अनुसार तथा अवधारित माल के मूल्य का पच्चीस प्रतिशत।
5.	90	शीर्ष सं० 90.19 के अन्तर्गत आने वाले माल जिनके अन्तर्गत श्रवण सहाय यंत्र नहीं हैं।	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल का पाँच प्रतिशत।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 70/82-CUSTOMS

G.S.R. 224-(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill, under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do

hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling within the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of auxiliary duty of customs leviable thereon under clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Chapter No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	26	Lead concentrates falling under Heading No. 26.01.	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2.	39	Low density and medium density Polyethylene moulding powder and granules falling under Heading No. 39.01/06.	Fifteen per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3.	39	Polypropylene falling under Heading No. 39.01/06	Twenty per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
4.	56	Polyester fibre and acrylic fibre falling under Heading No. 56.01/04	Twenty-five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
5.	90	Goods falling under Heading No. 90.19 excluding electric hearing aids.	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 71/82-सीमाशुल्क

सा० का० वि० 225(अ) :—केन्द्रीय सरकार, जित विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अंतर्गत कर संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई

घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 88 के अन्तर्गत आने वाले विमानों या अन्य वायुयानों के सिम्प्लेटरों के संघटक पुर्जों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क के उतने भाग से जितना, यथास्थिति, विमानों या अन्य वायुयानों के संघटक पुर्जों पर, उक्त वित्त विधेयक के अधीन उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क से अधिक है, छूट देती है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 71/82-CUSTOMS

G.S.R. 225-(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of simulators of aeroplanes and other aircrafts, falling within Chapter 88 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill as is in excess of the auxiliary duty of customs leviable on component parts of aeroplanes or other aircrafts, as the case may be, under the said Finance Bill, read with any relevant notification for the time being in force.

[F.No. Bud (Cus)/82]

सं० 72/82-सीमाशुल्क

सा० फा० नि० 226(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4), जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 82.05(2), 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.03(1), 84.09, 84.10(1), 84.11(1), 84.11(4), 84.13, 84.14, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1), 84.22, 84.23, 84.24(1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30(2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38(1), 84.39, 84.40(1), 84.41(1), 84.43(1), 84.42(2), 84.43, 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57, 84.59(2), 85.02(1), 85.11(1), 85.18/27(3), 85.18/27(7), 86.01/03, 87.01(1) और 87.02(3) के अन्तर्गत आने वाली किसी वस्तु की प्रारम्भिक स्थापना के प्रयोजनों के लिए, अथवा उनके संयोजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों को (जिनके अन्तर्गत डायोड, तापमानिक वाल्व, ट्रांजिस्टर, वैसे ही अर्ध-चालक साधन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ, पेपर संचारित्रों से विभिन्न संचारित या उनके संयोजन या अन्य पुर्जों के साथ उनके संयोजक नहीं हैं), जब उनका भारत में आयात किया जाए और जिनके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि वे ऐसी स्थापना, संयोजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित हैं, उक्त वित्त विधेयक के खंड 44 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना उक्त वस्तु पर जब उसका पूर्ण रूप से आयात किया

जाए, तत्समय प्रदत्त किसी सुसंगत अधिवृत्तना के साथ पठित उक्त वित्त विधेयक के अधीन उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क से अधिक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिवृत्तना सं० 179-सीमाशुल्क, तारीख 4 नवम्बर, 1980 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 72/82-CUSTOMS

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts parts (excluding diodes thermionic valves, transistors, similar semi-conductor devices, light emitting diodes, electronic microcircuits, capacitors other than paper capacitors or any combination thereof or with other parts) required for the purposes of the initial setting up, or for the assembly or manufacture of any article, falling under Heading Nos. 82.05(2), 84.01/2, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08(1), 84.09, 84.10(1), 84.11(1), 84.11(4), 84.13, 84.14, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1), 84.22, 84.23, 84.24(1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30(2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38(1), 84.39, 84.40(1), 84.41(1), 84.42(1), 84.42(2), 84.43, 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57, 84.59(2), 85.02(1), 85.11(1), 85.18/27(3), 85.18/27(7), 86.01/03, 87.01(1) and 87.02(3) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be so required for such setting up, assembly or manufacture, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of the auxiliary duty of customs leviable under the said Finance Bill, read with any relevant notification for the time being in force, on the said article when imported complete, subject to the conditions specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 179-Customs, dated the 4th September, 1980, as amended from time to time.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 73/82 सीमाशुल्क

सा० फा० नि० 227(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 44 के उपखंड (4) जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 85.01 के उपशीर्ष सं० (1) के अन्तर्गत आने वाली किसी वस्तु की प्रारम्भिक स्थापना के प्रयोजन के लिए अथवा उनके संयोजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों को (जिनके अन्तर्गत डायोड, तापमानिक वाल्व, ट्रांजिस्टर, वैसे ही अर्ध-चालक साधन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो-परिपथ, पेपर संचारित्र से विभिन्न संचारित या उनके कोई संयोजन या अन्य पुर्जों के साथ उनके संयोजन नहीं हैं), जब उनका भारत में आयात किया जाए और जिनके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि वे ऐसी स्थापना, संयोजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित हैं, उक्त वित्त विधेयक

क खंड 44 के उपखंड के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे सहायक सीमा-शुल्क से जितना उक्त वस्तु पर अब उसका पूर्ण रूप में व्यापत किया जाए, तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त वित्त विधेयक के अधीन उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क से अधिक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० 231-सीमाशुल्क, तारीख 27 नवम्बर, 1980 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है।

[फा० सं० बजट (सीमा शु०)/82]

No. 73/82-CUSTOMS

G.S.R. 227(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill, under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts parts (excluding diodes, thermionic valves, transistors, similar semi-conductor devices, light emitting diodes, electronic microcircuits, capacitors other than paper capacitors or any combination thereof or with other parts) required for the purposes of the initial setting up, or for the assembly or manufacture of any article, falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 85.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be so required for such setting up, assembly or manufacture, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 44 of the said Finance Bill, as is in excess of the auxiliary duty of customs leviable under the said Finance Bill, read with any relevant notification for the time being in force on the said article when imported complete, subject to the conditions specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 231—Customs, dated the 27th November, 1980, as amended from time to time.

[F. No. Bud(Cus)/82.]

सं० 74/82-सीमाशुल्क

सा०का०वि० 228 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को, 28 फरवरी, 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा० सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 74/82—CUSTOMS

G.S.R. 228(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 47 of the

second mentioned Act during the period commencing on the 28th February, 1982, and ending on the 31st March, 1982.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 75/82-सीमाशुल्क

सा०का०वि० 229 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का विखंडन करती है, अर्थात् :—

1. सं० 123-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
2. सं० 124-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
3. सं० 125-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
4. सं० 126-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
5. सं० 127-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
6. सं० 128-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
7. सं० 129-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
8. सं० 130-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
9. सं० 131-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
10. सं० 132-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
11. सं० 133-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
12. सं० 134-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
13. सं० 135-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
14. सं० 137-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
15. सं० 138-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
16. सं० 139-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।
17. सं० 140-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 ।

[फा० सं० बजट (सी०शु०)/82]

No. 75/82-CUSTOMS

G.S.R. 229(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:—

1. No. 123—Customs, dated the 12th May, 1981.
2. No. 124—Customs, dated the 12th May, 1981.
3. No. 125—Customs, dated the 12th May, 1981.
4. No. 126—Customs, dated the 12th May, 1981.
5. No. 127—Customs, dated the 12th May, 1981.
6. No. 128—Customs, dated the 12th May, 1981.
7. No. 129—Customs, dated the 12th May, 1981.
8. No. 130—Customs, dated the 12th May, 1981.
9. No. 131—Customs, dated the 12th May, 1981.
10. No. 132—Customs, dated the 12th May, 1981.
11. No. 133—Customs, dated the 12th May, 1981.
12. No. 134—Customs, dated the 12th May, 1981.
13. No. 135—Customs, dated the 12th May, 1981.
14. No. 137—Customs, dated the 12th May, 1981.
15. No. 138—Customs, dated the 12th May, 1981.
16. No. 139—Customs, dated the 12th May, 1981.
17. No. 140—Customs, dated the 12th May, 1981.

[F. No. Bud(Cus)/82]

सं० 76/82-सीमा-शुल्क

सांकां० 230 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के टिप्पण 7 के अनुसरण में, यह विहित करती है कि "कार्बन अवशेष" का अवधारण तत्समय यथाप्रवृत्त भारतीय मानक संस्था के विनिर्देश नं० मा० : 1448 (पी : 8)-1967 में उद्घारित रीति से रेम्सबटम कार्बन अवशेष उपकरण के नाम से ज्ञात उपकरण द्वारा किया जाएगा।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

No. 76/82-CUSTOMS

G.S.R. 230(E).—In pursuance of Note 7 to Chapter 27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby prescribes that "Carbon residue" shall be determined in the apparatus known as Ramsbottom Carbon Residue Apparatus in the manner indicated in the Indian Standards Institution specification IS : 1448 (P : 8)—967 as in force for the time being.

[F. N. Bud.(Cus)/82.]

सं० 77/82-सीमाशुल्क

सांकां० 231 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के टिप्पण 7 के अनुसरण में, यह विहित करती है कि "रंग तुलना परीक्षण" निम्नलिखित रीति से किया जाएगा अर्थात् :—

(i) पहले आयुक्त जन में पोटेशियम आयोडाइड (वैश्लेषिक अभिकर्मक

क्वालिटी) के प्रबलता घोल के आधार पर पांच प्रतिशत मात्र तैयार करें।

(ii) उसमें यथातथ 0.04 सामान्य आयोडीन घोल तैयार करने के लिए छोड़ित मात्रा में आयोडीन (वैश्लेषिक अभिकर्मक क्वालिटी) मिलाएं।

(iii) उसके पश्चात् परीक्षण के अधीन खनिज तेल के रंग की इस प्रकार तैयार किए गए आयोडीन घोल से तुलना करें।

[फा० सं० बजट (सी० शु०)/82]

जे० श्रीधरन, धवर सचिव

No. 77/82-CUSTOMS

G.S.R. 231 (E).—In pursuance of Note No. 7 to Chapter 27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby prescribes that "colour comparison test", shall be done in the following manner, namely:—

(i) First prepare a five per cent weight by volume solution of Potassium Iodide (analytical reagent quality) in distilled water.

(ii) To this, add Iodine (analytical reagent quality) in requisite amount to prepare an exactly 0.04 normal Iodine solution.

(iii) Thereafter, compare the colour of the mineral oil under test with the Iodine solution so prepared.

[F. No. Bud. (Cus.)/82]

J. SRIDHARAN, Under Secy.